



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 15—अगस्त 21, 2009 (श्रावण 24, 1931)  
 No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 15—AUGUST 21, 2009 (SRAVANA 24, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
 [Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by  
 the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

एकीकृत मुख्यालय

रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

प्रशासन निदेशालय (सिविल)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2009

सं. 436, दिनांक 18 जून 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत उनके नामों के आगे उल्लेखित समयावधि तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, उस समय तक उप निदेशक (वर्ग 'क' राजपत्रित), वेतनमान PB—3 (रुपए 15,600—39,100/-) के सहित GP रु. 6,600/- के रूप में नियुक्त करते हैं :—

(क) श्री के सी भारद्वाज	13-01-09 से 13-08-09
(ख) श्री एम के झा	13-01-09 से 13-08-09
(ग) श्री यू एस लटवाल	13-01-09 से 13-08-09
(घ) श्री सुधीर कुमार	13-01-09 से 13-08-09

ये नियुक्तियां पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई हैं तथा प्रशासकीय कारणों से बिना सूचना अथवा नियमित पदधारक आने पर रद्द की जा सकती है।

शंकर सिंह  
निदेशक (एस)

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 437, दिनांक 18 जून 2009—निम्नांकित को उनकी वायुसेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की अवधि तक के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का कॉमोडोर-इन-चीफ का अवैतनिक पद दिया जाता है :—

एयर चीफ मार्शल, प्र व नाईक, पविसेमे, विसेमे, एडीसी  
 वायु सेनाध्यक्ष,  
 वायु सेना मुख्यालय,  
 नई दिल्ली-110011

--01 जून 2009

बी सी शर्मा  
ब्रिगेडियर  
उप महानिदेशक (एमएस)

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 438, दिनांक 18 जून 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :--

राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं (पूर्व-परिशोधित)।

पिन सं.	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2006एबी1009	श्री रंजीत टो	एडीई, बेंगलौर	02.11.2006
2008एबी1091	श्री अपूर्वा कुमार डे	एसएल (पानागढ़), हैदराबाद	21.05.2008
2008एबी1085	श्री संभव वर्मण	एटीवीपी, दिल्ली	21.05.2008
2008एबी1155	श्री मलिकार्जुन बोमु	सोमलेक, बेंगलौर	21.05.2008
2008एबी1505	श्री मनीष प्रताप सिंह	डीईएल, देहरादून	16.09.2008
2008एबी1253	श्री सतेन्द्र सिंह धर्मसक्त्	डीईएल, देहरादून	21.05.2008
2008एबी1507	श्री सौरभ प्रताप सिंह	डीईबीईएल, बेंगलौर	11.11.2008
2006एबी1248	श्री रविन्द्रनाथ बोवली	डीएमआरएल, हैदराबाद	27.04.2006
2008एबी1364	श्री गौगव सक्सेना	डीआरडीएल, हैदराबाद	21.05.2008
2008एबी1038	श्री मनीष रंजन	जीटीआरई, बेंगलौर	21.05.2008
2008एबी1040	श्री विवेक कुमार झा	जीटीआरई, बेंगलौर	21.05.2008
2006एबी1035	श्री रवि भैसारे	जीटीआरई, बेंगलौर	27.04.2006
2005एबी1473	मिस. आर विजयालक्ष्मी	एचईएमआरएल, पुणे	22.08.2005
2008एबी1169	श्री संदीप आनंद	एलआरडीई, बेंगलौर	21.05.2008
2008एबी1173	श्री हरिन्द्र कुमार राय	एलआरडीई, बेंगलौर	21.05.2008
2008एबी1188	श्री राहुल कुमार विश्वकर्मा	नेवल डॉकयार्ड, मुम्बई	21.05.2008
2008एबी1215	श्री लिनथिशा पी	एनपीओएल, कोच्चि	21.05.2008
2008एबी1371	श्री कपिल नारंग	एसएमपीएल, दिल्ली	21.05.2008
2008एबी1385	श्री हरदीप सिंह	टीबीआरएल, चंडीगढ़	21.05.2008

टी. अब्दुर्रज्जाक  
संयुक्त निदेशक (कार्यिक)

आर्मी शाखा

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 439, दिनांक 18 जून 2009--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस/2586/डी (मेडिकल)

दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए, के अन्तर्गत 27 जनवरी 2008 से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:--

ले. परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या और जन्म तिथि

- ले. दीपिका (एनआर-21700एफ), 27 जुलाई 1984  
ले. नमृता कृपलानी (एनआर-21701के), 07 नवम्बर 1983  
ले. पूनम सिंह (एनआर-21702एम), 20 अगस्त 1981  
ले. जिशा जॉन्सन (एनआर-21703पी), 20 फरवरी 1985  
ले. जानकी भट्ट (एनआर-21704एक्स), 16 मई 1978  
ले. अनिता दास (एनआर-21705ए), 28 फरवरी 1983  
ले. अर्जिता रतुडी (एनआर-21706एच), 03 नवम्बर 1981  
ले. मीनाक्षा मोहाल (एनआर-21707एल), 08 अगस्त 1984  
ले. प्रयम्बदा चौबे (एनआर-21708एन), 16 अप्रैल 1985  
ले. तमन्ना (एनआर-21709डब्ल्यू), 02 फरवरी 1983  
ले. लूसिम्मा तिरकी (एनआर-21710एल), 15 जनवरी 1984  
ले. सुनीता कुशवाहा (एनआर-21711एन), 04 जनवरी 1985  
ले. रुचिका शर्मा (एनआर-21712डब्ल्यू), 10 जनवरी 1985  
ले. मीना शर्मा (एनआर-21713वाई), 14 नवम्बर 1982  
ले. सपना रियाल (एनआर-21714एफ), 14 अगस्त 1984  
ले. सौभाग्य के एम (एनआर-21715के), 26 नवम्बर 1982  
ले. जीमोल जॉन (एनआर-21716एम), 06 मार्च 1985  
ले. मौसमी दास (एनआर-21717पी), 30 जून 1980  
ले. सिन्धु पी के (एनआर-21718एक्स), 18 जुलाई 1980  
ले. सुधिता चक्रवर्ती (एनआर-21719ए), 31 मई 1982

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस/2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988, जोकि समय समय पर संशोधित किया गया, के सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए, के अन्तर्गत 29 अगस्त 2008 से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:--

ले. परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या और जन्म तिथि

- ले. लीविया अल्बीना परेश (एनआर-21776एफ), 26 नवम्बर 1986  
ले. मरन्या पी वी (एनआर-21777के), 13 मई 1987  
ले. करिश्मा खुगशाल (एनआर-21778एम), 19 जून 1985  
ले. गेम्मा राज (एनआर-21779पी), 19 सितम्बर 1985

- ले. नैन्सी मैथ्यूज (एनआर-21780के), 02 जनवरी 1986  
 ले. धान्या मारिया (एनआर-21781एम), 08 सितम्बर 1986  
 ले. जन्त टक्कर (एनआर-21782पी), 10 दिसम्बर 1987  
 ले. प्रिया पूनिया (एनआर-21783एक्स), 01 अगस्त 1986  
 ले. सुधा कुमारी (एनआर-21784ए), 16 मार्च 1987  
 ले. श्री लक्ष्मी मोहन (एनआर-21785एच), 04 नवम्बर 1986  
 ले. अनुजा पारेल (एनआर-21786एल), 19 जनवरी 1987  
 ले. मेघा के (एनआर-21787एन), 27 मार्च 1987  
 ले. बन्दी पचौरी (एनआर-21788डब्ल्यू), 19 जुलाई 1986  
 ले. दीपा आर आर (एनआर-21789वाई), 20 सितम्बर 1986  
 ले. गुरवदीप कौर (एनआर-21790एन), 20 दिसम्बर 1986  
 ले. संतोष कुमारी (एनआर-21791डब्ल्यू), 02 फरवरी 1984  
 ले. सरिता कुमारी (एनआर-21792वाई), 21 अक्टूबर 1986  
 ले. खुशबू राना (एनआर-21793एफ), 03 जुलाई 1986  
 ले. कविता सी (एनआर-21794के), 01 जुलाई 1986  
 ले. सुरेखा मुडी (एनआर-21795एम), 15 नवम्बर 1983  
 ले. दीपिका रावत (एनआर-21796पी), 19 अप्रैल 1985  
 ले. ज्योति (एनआर-21797एक्स), 16 दिसम्बर 1985  
 ले. निशा त्यागराजन (एनआर-21798ए), 01 जुलाई 1986  
 ले. मन्जू राधाकृष्णन (एनआर-21799एच), 26 सितम्बर 1986  
 ले. बबिता कुमारी (एनआर-21800एम), 24 जून 1985  
 ले. कुसुम लता (एनआर-21801पी), 18 मार्च 1987  
 ले. समिक्षा राठौर (एनआर-21802एक्स), 14 सितम्बर 1983  
 ले. सुर्देशना बोमजोन (एनआर-21803ए), 04 सितम्बर 1985  
 ले. तनुराज उपाध्याय (एनआर-21804एच), 13 अक्टूबर 1986  
 ले. आशा नेगी (एनआर-21805एल), 12 जनवरी 1986  
 ले. रजनीश (एनआर-21806एन), 15 सितम्बर 1984  
 ले. अनु बेसनेट (एनआर-21807डब्ल्यू), 24 दिसम्बर 1984

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस/2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जो कि समय समय पर संशोधित किया गया, के सेना अनुदेश 3/98 के अन्तर्गत मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन 19 अगस्त 2008 से प्रदान करते हैं:— (19 अगस्त 2007 वरीयता के साथ)

ले. परख पर (बी.एस.सी. नर्सिंग)

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या और जन्मतिथि

ले. अर्जिता (एनआर-21749एक्स), 27 नवम्बर 1986

- ले. नवीना डबास (एनआर-21750एम), 12 फरवरी 1985  
 ले. अन्जना कुमेरी (एनआर-21751पी), 27 मार्च 1985  
 ले. नुपुर सचदेवा (एनआर-21752एक्स), 02 मार्च 1986  
 ले. निशा सिंह (एनआर-21753ए), 01 अगस्त 1986  
 ले. तनुश्री मित्रा (एनआर-21754एच), 05 जुलाई 1984  
 ले. बी रोशनी (एनआर-21755एल), 27 मार्च 1986  
 ले. अनु जकारिया (एनआर-21756एन), 25 अगस्त 1985  
 ले. राधिका दास (एनआर-21757डब्ल्यू), 24 अप्रैल 1985  
 ले. श्वेता दहिया (एनआर-21758वाई), 13 जुलाई 1985  
 ले. कृष्णा विष्ट (एनआर-21759एफ), 18 अक्टूबर 1983  
 ले. कविता राजवार (एनआर-21760डब्ल्यू), 06 अगस्त 1985  
 ले. अश्वती विजयन (एनआर-21761वाई), 05 मई 1985  
 ले. वृन्दा पी (एनआर-21762एफ), 16 फरवरी 1986  
 ले. दीपिका शेखावत (एनआर-21763के), 29 मार्च 1986  
 ले. जी गीतू (एनआर-21764एम), 06 सितम्बर 1986  
 ले. लिली सामन्था (एनआर-21765पी), 30 अक्टूबर 1984  
 ले. संगीता फिलिप (एनआर-21766पी), 13 मार्च 1985  
 ले. ज्योति साहा (एनआर-21767ए), 12 अप्रैल 1983  
 ले. अन्जू सुदर्शन के (एनआर-21768एच), 06 मई 1986  
 ले. रंजनी के कृष्णन (एनआर-21769एल), 29 नवम्बर 1984  
 ले. अरपिता चक्रवर्ती (एनआर-21770ए), 27 अगस्त 1985  
 ले. हिमा जॉन (एनआर-21771एच), 01 दिसम्बर 1983  
 ले. तुंगुंग सी (एनआर-21772एल), 30 नवम्बर 1984  
 ले. सुमन रावत (एनआर-21773एन), 28 मई 1985  
 ले. स्नेह यादव (एनआर-21774डब्ल्यू), 12 मार्च 1985  
 ले. प्रियम्बदा जे (एनआर-21775वाई), 16 अगस्त 1985

#### अस्थायी कमीशन

राष्ट्रपति/सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस/2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जो कि समय समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए, के अन्तर्गत 24 मार्च 2008 से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अस्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:— (24 मार्च 2007 वरीयता के साथ)

ले. परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या और जन्म तिथि

ले. जी सुन्दरी (एनएस-21720पी), 15 दिसम्बर 1984

ले. लेशराम अमिता (एनएस-21721एक्स), 09 सितम्बर 1981

- ले. ए ग्रेस ज्ञान मार्ग्रेट (एनएस-21722ए), 23 जनवरी 1986  
 ले. कल्पना पाठक (एनएस-21723एच), 06 फरवरी 1982  
 ले. कीर्ति मान (एनएस-21724एल), 14 नवम्बर 1985  
 ले. एल्लिजाबेथ जूली जार्ज (एनएस-21725एन), 30 जुलाई 1978  
 ले. नीरजा केरकटा (एनएस-21726डब्ल्यू), 20 मई 1979  
 ले. सीमा जाखड़ (एनएस-21727वाई), 20 नवम्बर 1984  
 ले. सुरजलता अखम (एनएस-21728एफ), 10 जुलाई 1979  
 ले. एस सरला (एनएस-21729के), 26 जुलाई 1983  
 ले. तेनमोयी जे (एनएस-21730वाई), 09 जून 1985  
 ले. विधेश्वरी बी (एनएस-21731एफ), 17 जून 1984  
 ले. लक्ष्मी के एस (एनएस-21732के), 10 मई 1985  
 ले. रूमी नियोग सैकिया (एनएस-21733एम), 06 जून 1975  
 ले. दीप शिखा खाडसे (एनएस-21734पी), 19 सितम्बर 1980  
 ले. एम मुप्पिडयम्माल (एनएस-21735एक्स), 22 अप्रैल 1980  
 ले. सुधा एस (एनएस-21736ए), 15 मार्च 1986  
 ले. शालू वर्मा (एनएस-21737एच), 18 अक्टूबर 1984  
 ले. श्रीदेवी बिरादर (एनएस-21738एल), 22 जुलाई 1984  
 ले. सोनी जेनिफर (एनएस-21739एन), 30 मार्च 1985  
 ले. जयन्ति (एनएस-21740एच), 18 फरवरी 1985  
 ले. प्रिया एस (एनएस-21741एल), 06 अप्रैल 1983  
 ले. लीना धमगये (एनएस-21742एन), 03 अप्रैल 1984  
 ले. अरूणा बिरादर (एनएस-21743डब्ल्यू), 20 जुलाई 1984  
 ले. विश्व भारती (एनएस-21744वाई), 10 जनवरी 1986

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25937/डीजीएफएमएस/एमएनएस/2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय समय पर संशोधित किया गया और सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए, के अन्तर्गत मिलिट्री नर्सिंग सेवा में 29 अगस्त से अस्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:--

ले. परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत सं., जन्म तिथि

- ले. विवेका आर्या (एनएस-21808वाई), 26 जून 1985  
 ले. एम एनलिन पाथरोज (एनएस-21809एफ), 09 अप्रैल 1986  
 ले. ममता कुमारी द्विवेदी (एनएस-21810डब्ल्यू), 27 मार्च 1984  
 ले. अनिशा कुमारी (एनएस-21811वाई), 28 अक्टूबर 1984

- ले. अनिता बच्छी (एनएस-21812एफ), 23 मार्च 1985  
 ले. हिमानी सिंह चौधरी (एनएस-21813के), 08 जुलाई 1981  
 ले. अनुजा अराध्ये (एनएस-21814एम), 14 नवम्बर 1986  
 ले. सुतनिमा चौधरी (एनएस-21815पी), 05 अगस्त 1986  
 ले. लालसा (एनएस-21816एक्स), 29 अक्टूबर 1986  
 ले. रैन्मी जॉयस जे (एनएस-21817ए), 19 जुलाई 1987  
 ले. नवदीप कौर कम्बोज (एनएस-21818एच), 30 दिसम्बर 1985  
 ले. गायत्री बी (एनएस-21819एल), 25 जनवरी 1985  
 ले. कल्पना कापसे (एनएस-21820ए), 10 मई 1983  
 ले. अनन्दिता दास (एनएस-21821एच), 18 सितम्बर 1985  
 ले. सुकन्या (एनएस-21822एल), 01 मार्च 1983  
 ले. निग्मी फ्रैन्काइज (एनएस-21823एन), 31 मई 1984  
 ले. दीप्ति तिवारी (एनएस-21824डब्ल्यू), 14 नवम्बर 1984  
 ले. रूबिनी जॉय (एनएस-21825वाई), 28 मई 1987  
 ले. सुनाक्षी सिंह (एनएस-21826एफ), 11 नवम्बर 1984  
 ले. मौम्या मोहन (एनएस-21827के), 05 जुलाई 1985  
 ले. प्रीति जोस (एनएस-21828एम), 03 मई 1987  
 ले. मौसमी दत्ता (एनएस-21829पी), 12 मई 1985

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अपर महानिदेशिका एमएनएस

सेना सचिव शाखा

सं. 440, दिनांक 19 जून 2009:--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी सेना

ले. जनरल के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आईसीआर्म, ले. जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

(आईसी-27026), मेजर जनरल 11 दिसम्बर 2008 से ज्येष्ठता प्रकाश मेनन, एवीएसएम, परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले वी एस एम गार्ड बिना 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी।

(आईसी-25901), मेजर जनरल 27 दिसम्बर 2008 से ज्येष्ठता के टी परनाईक, वाई एस एम, परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले राज रीफ बिना 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी।

(आईसी-25833), मेजर जनरल जी एम नायर, एस एम, वी एस एम, 11 जी आर, 23 जनवरी 2009।

(आईसी-27203), मेजर जनरल एस के सिंह, एवीएसएम, 8 जी आर, 01 फरवरी 2009।

(आईसी-27215), मेजर जनरल एन के सिंह, एवीएसएम, वी एस एम, 3 जी आर, 16 फरवरी 2009।

(वी-00330), मेजर जनरल जे के श्रीवास्तव, आरवीसी, 24 फरवरी 2009।

मेजर जनरल के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आईसी व आर्म, मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि (वी-00334), ब्रिगेडियर एम एल शर्मा, आरवीसी, 07 मार्च 2009।

एन के फूकन  
निदेशक/एमएस (एक्स)

-----

थल सेना शाखा

सं. 441, दिनांक 19 जून 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

ग्रुप कैप्टन से एयर क्रोमोडोर (व समकक्ष) के पद पर

वी सारसवत (एमआर-04370एक्स), (वा.से.-28907), 01 जून 2008 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मई से दी जाती है।

बी एस रावोर  
मेजर जनरल  
अति मविससेचि सेवा (कार्मिक)

-----

(सेना शाखा)

सं. 442, दिनांक 19 जून 2009--राष्ट्रपति जो निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले. कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक नं., नाम, आर्म, मूल रैंक की तिथि

(आईसी-45042) आर एस जौहल, ईएमई, 15 अगस्त 2006

(आईसी-41435) मनविंदर सिंह, एएडी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-41517) आर सुंदरम, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-43615) एस एस मुहाग, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45235) वाई के सिंह, इंटर, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45239) अनिल रंजन रे, ईएमई, 15 अगस्त 2006

(आईसी-41920) ए एन बैधुर, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42076) डी के हरिदास, ईएमई, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42098) आर एस राठौर, आर्टी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42151) आर के त्यागी, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-43996) जी एस श्याववाल, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-44022) राकेश चौपड़ा, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45306) आर के दुरेहा, ईएमई, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45316) जी एस चड्ढा, ईएमई, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42407) एस बी माधुर, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42489) बी एस यादव, ईएमई, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42609) एस एस अहलाकत, एएससी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42319) अजय दिक्षित, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42487) एस सावंत, एएडी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45246) आई एस सहदेवा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45365) प्रवेश पुरी, एसी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45366) संदीप सिंह, ईएमई, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45367) इंद्रजीत सिंह, ग्रेक इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45370) जी एस मैमक, ए एस सी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45371) डी पी एस डडवाल, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45374) एन के खजुरिया, एएससी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45391) नीरज शर्मा, मेक इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45398) आर संपत, एसी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45416) दिनेश अलग, एएससी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-45419) वी सी चित्रवंशी, जैग, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42750) करणजीत सिंह, ईएमई, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42751) एस के नांदल, गार्ड्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42752) एस यादव, एएडी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42753) बी सी पोनपा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42755) पी के सैनी, मेक इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42756) वी भारवाह, ईएमई, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42758) एम जे कुमार, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42759) एस के लामा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42761) केशव असवाल, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42763) राजीव नेहरा, एएससी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42764) पंकज चौहान, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42765) जे जे मैथ्यू, मेक इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

--रिक्त--

(आईसी-42769) अजीत सिंह यादव, ईएमई, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42770) जी एस पनेक, एसी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42771) संजय सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42773) एस के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42774) पी के जैसवाल, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42775) जयराम कुमार, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42777) आर आर पाटिल, आर्टी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42779) वाई कपूर, एसी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42780) ए के सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42781) यू वी तालूर, एएडी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42782) डी ओबराय, आर्टी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42784) एस के महापात्र, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42785) बी पी जैकब, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42786) सुरिंदर यादव, एएससी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42788) जे के गौतम, आर्टी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42790) एच पंत, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42792) ए के सुरी, आर्मी एविएशन, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42793) राजीव भोला, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42794) एम वी एस कुमार, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42795) जे भोला, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42796) के सी पंचानाथन, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42797) ए एस चाहिल, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42798) बलबीर सिंह, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42802) बी सी खंडूरी, आर्टी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42803) हाफिज खान, एएडी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42804) एन एस राजपुरोहित, एएससी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42805) रतन कुमार, आर्टी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42806) एस के झा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42807) जे एस राजपुरोहित, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42808) पी बहुगुणा, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42809) किशोर चौद एस, मेक इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42811) बी एस शेखावत, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42812) आर शर्मा, आर्टी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42814) सी वी अजय, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42817) एस पालीवाल, आर्टी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42818) एच कोहली, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42820) एस कौशल, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42821) शरद शुक्ला, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42825) एस के नारायण, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42828) जसबीर सिंह, एओसी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42831) हर्षिंदर सिंह, आर्टी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42832) पी कुमार, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42833) गजिंदर सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42836) जी सी शर्मा, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42838) पी आर मुरली, आर्टी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42841) एन एस दहिया, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42842) सुशील शर्मा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42843) आर झलदियाल, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42844) के एस महर, एओसी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42845) ए कौरा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42848) रवि, आर्टी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42851) पी एन महापात्रा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42852) ए जिंदल, मेक इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42853) गौतम ओबराय, एसी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42855) दीपक कुमार, एएससी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42857) जी एस रहलोन, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42862) वाई एस मोर, गाईड्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42867) डी गुप्ता, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42873) एस थापलियाल, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42877) एस नंद कुमार, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42878) अरविंद मोहन, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42881) संजय रिहानी, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42885) एस ठाकुर, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42887) पी के चहल, इन्ट, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42893) एन एस सीठी, एएससी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42894) पीयूष अग्रवाल, एएडी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42897) एच के पोखरियाल, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42899) एस बालाचंद्रू, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42904) एन एस घुमान, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42905) विनीत प्रभात, एओसी, 15 अगस्त 2006

(आईसी-42906) टी एस संधू, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006

- (आईसी-42914) राम एस गबरी, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42915) आर वी सिंह, एएससी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42919) मनोज कुमार, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42921) आर यादव, इन्ट, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42926) भास्कर कलिता, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42935) आर के चौहान, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42938) सुनील मिश्रा, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42945) एस शर्मा, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42946) एम वी शशिधर, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42947) सुरेश सिंह, एओसी, 21 अगस्त 2006 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 15 अगस्त 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के।
- (आईसी-42954) प्रमोद कुमार ए, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42955) जरनैल सिंह, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42958) एच एम अय्यर, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42959) पो जे निनान, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42965) वी किशोर, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42967) डी कसाल, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42971) राजिंदर सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42972) आर पांडे, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42976) पी एस जुल्का, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42977) जी जी पमोदी, मेक इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42980) एस के यादव, एएससी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42982) पी एस चंदोक, एओसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42987) के एस आर मोहन, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42992) ए के शर्मा, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42995) ए के गुप्ता, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42999) एस त्रिपाठी, एओसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43001) आर के श्रीवास्तव, इन्ट, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43008) देवेंद्र सिंह, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43010) बी के त्यागी, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43011) एस के शर्मा, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43016) एस शर्मा, मेक इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43018) पी के शर्मा, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43021) जी एस रावत, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43022) पी के एस भट्टी, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43028) ए के सिन्हा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43033) जी एन रघुराम, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43035) राजीव वर्मा, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43037) डी यादव, इन्ट, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43038) पी शर्मा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43048) एस एस नायर, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43051) पी पी सिंह, एएससी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43059) लोबजंग नीमा, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43064) एन कुमार, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43073) आर रैना, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43088) ए भटनागर, एसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43089) एच भटनागर, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43093) एस के सिंह, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43102) दीपिंदर सिंह, एओसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43121) पी श्रीनागेश, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43123) आर बख्शी, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43126) प्रदीप सोप्ट, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43127) एन कुमार, एएससी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43129) एम भटनागर, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43136) एस एस राठौर, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43144) एस के दत्ता, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43149) के वेंकटरामन, एओसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43210) बिनोद कुमार, एईसी, 01 मार्च 2007 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 15 अगस्त 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के।
- (आईसी-42902) दिविंदर सिंह, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-42875) एस के छिक्कारा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44854) एम एम नायर, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44856) विक्रम जोशी, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44858) अमिक गर्ग, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44862) ओ पी यादव, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44863) वी लालचंदानी, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44867) अतुल टपलियाल, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44869) राजीव कुमार सिंह, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44870) डी एम गुप्ता, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44873) आदर्श भारद्वाज, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44874) एम एम मजूमदार, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44879) आर एस वी रमन्ना, ईएमई, 15 अगस्त 2006

- (आईसी-44881) सुनील एस, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44882) एस एस कपूर, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44885) राजेश जयसवाल, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44889) टी भट्टाचार्य, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44893) एम के सिंगल, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44899) ए के शिवकुमार, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44900) गुरगोपाल सिंह, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44901) संजय शर्मा, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44902) संजय शर्मा, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44908) एम के शर्मा, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44912) रमेश कुमार पी, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44919) ए वी रमेश, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44921) एस एल जोशी, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44942) दिनेश जैन, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44948) दीपक सिंह, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44954) एस वी चंद्रन, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44963) आर के थारु, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44981) सी डी भरुच, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44859) जी पी मिश्रा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44880) अजय घोष पी के, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44915) ए के सिन्हा, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44865) रविंदर मेहता, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44914) एन के जैन, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-44920) एच के रथ, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45843) वी एस रलही, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45435) आर निवास, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45437) एस एस राघव, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45438) डी एस लोहमरोर, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45439) ए भट्टाचार्य, एसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45440) के के जे ए खान, एसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45444) कामल सिंह, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45446) जे पी तिवारी, एओसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45448) राजेश ठाकुर, एएससी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45451) आर आर नायर, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45457) आर आर नायर, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45459) एस मुखर्जी, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45462) वी के पंत, एओसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45468) एन जोशी, एओसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45479) मनमोहन सूद, जैग, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45493) राजीव कपूर, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45495) बी के भारद्वाज, एएससी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45500) राजीव महरोत्रा, जैग, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45504) जे चक्रवर्ती, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-45517) राकेश, जैग, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43216) वी पी सिंह, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43217) मोहन सिंह, गार्ड्स, 15 जून 2007 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 15 अगस्त 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के।
- (आईसी-43218) पी एस मिहास, एसी, 15 अगस्त 2007
- (आईसी-43219) आलोक कचकर, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43220) एस पी एस सिधू, मेक इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43222) वी एस रावत, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43223) आर के झा, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43225) जी एस शान, एओसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43226) ए के शर्मा, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43228) एम राजेंद्रन, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43230) जे के सिंह, एसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43231) एस एस जोहल, एओसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43232) मोहित नौटियाल, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43234) अरनय चितकारा, एसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43235) एम डी चाको, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43236) एस खत्री, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43238) संजय रावल, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43239) हरिंदर सिंह, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43241) आर एल हंगी, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43244) एम एस जोधा, एएससी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43245) एन एस आर सबरमानी, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43246) एस के कुरल्य, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43249) एम के सगोच, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43250) आर एन माथुर, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43251) एस शर्मा, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43252) के एच घवांस, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43254) एस एस कहलोन, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006



- (आईसी-43258) एस वी भास्कर, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43262) ए अरुण, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43264) आलोक वत्स, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43265) राजीव मिनोचा, एएससी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43266), आर सी खजूरिया, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43267) वी के मेनन, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43268) संजीव दलाल, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43269) एन एस खहलोन, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43272) आर वी सधोतरा, एएससी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43273) ए सामन्ता, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43274) एस गोपीनाथ, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43275) एम एस तोमर, एसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43278) अरुण सर्राफ, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43279) एस सुमेर, एसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43280) आर एल पतरु, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43283) जे दहिया, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43284) के के गुप्ता, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43285) डी पी पांडे, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43294) ए के पांडे, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43295) रविन खोसला, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43296) वी के मिश्रा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43297) जे एस सिधाना, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43298) एस एस बिरडो, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43300) पी एस राजपुरोहित, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43304) आर मल्होत्रा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43307) एन राजकुमार, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43311) पी झा, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43319) सुनील कोटनाला, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43320) आर भाटिया, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43330) जे एस संधू, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43331) एस सी पंवर, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43333) के नारायणन, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43337) कर्मजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43338) के बी जयराज, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43343) राजीव कुमार, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43349) एम निजवान, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43350) एस के लोंका, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43352) एन डी जोड़ी जोशी, इन्ट, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43354) जे एस संधु, एसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43355) गुरदयाल सिंह, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43363) वी के पोखरियाल, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43364) एस एस खारा, इन्ट, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43365) जे होता, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43370) जे पी मेथ्यू, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43371) आर नन्दा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43376) संजीव दत्त, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43385) ओ पी पांडे, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43388) एम के सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43389) पी के सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43390) एस सी सदांगी, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43391) एस के दत्ता, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43393) आर ए मन्धर, एओसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43394) संदीप मिश्रा, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43395) एम के बिंदस, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43397) अनिल पुष्करणा, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43399) अजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43402) एम के गुप्ता, एओसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43407) एस पावमणि, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43415) डी पी एस चहल, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43421) के एस राव, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43423) एस तिवारी, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43426) अतेश चहर, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43428) वी एस यादव, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43429) बी सी शर्मा, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43431) एम एस करखानिस, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43434) एस पी सिंह, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43436) कंवलजीत सिंह, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43437) आर भार्गव, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43440) आर लोवे, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43443) एस एस संधू, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43444) पीजीके मेनन, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43445) ए खाण्डपुर, आर्टी, 15 अगस्त 2006

- (आईसी-43452) आर कपूर, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43454) बी मुखर्जी, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43460) ए एस श्रीवास्तव, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43466) राजेंद्र शल्लेय, एसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43471) एस एम शिंदू, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43472) पी सी भावर, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43473) प्रमोद राय, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43476) एन पी सिंह, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43479) विजय सहगल, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43481) एस प्रोवर, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43483) प्रदीप सिंह, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43513) एस भार्गव, एएससी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43516) यू सी प्रसाद, इन्जीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43529) पी कौशिक, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43532) अरविंदर सिंह, एओसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43547) आर के सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43549) डी एस लोचम, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43568) एम के रंगरा, एओसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43570) प्रगट सिंह, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43582) अश्विन देव, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43594) जी एस कलकट, एएडी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43604) ए पी सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43620) ए ठाकुर, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43648) जे एच सैम्युयल, आईसी, 30 जुलाई 2007 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 15 अगस्त 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के।
- (आईसी-43287) एम के सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43306) जगदीप सिंह, आर्टी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43412) एम एस जोधा, एसी, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-43563) संजय बहल, इन्फैन्ट्री, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47481) विजय जैन, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47482) एच एस कहलोन, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47483) जे एस इस्मर, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47487) जे एस बरार, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47491) आर के ठोमर, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47496) डी बी पैनी, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47503) एन एस सी रोविंद, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47510) आर के गौर, सिग्नल्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47514) एम के गुप्ता, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47520) एन के झा, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47527) पी के गोयल, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47535) दीपक शरण, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47539) प्रवीण कुमार, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47540) ए के बिजोलकर, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47484) मुखदेव सिंह, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47515) प्रवीर देव, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47533) नर राजशेखर, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47502) अश्विनी कुमार, ईएमई, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-47532) जी कुमारस्वामी, इंजीनियर्स, 15 अगस्त 2006
- (एसएल-03107) आर एम प्रधान, एसएलक्यूएम, 08 फरवरी 2008 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 15 अगस्त 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के।
- (आईसी-43203) जे के लक्ष्मण, एमएफ 15 अगस्त 2006
- (एसएल-03364) सी एस दिल्ली, एसएलईआर/टीईओ, 18 दिसम्बर 2006 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 15 अगस्त 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के।
- (एसएल-03391) सुवास चंदेर, एसएल साइफर, 15 अगस्त 2006
- (एसएल-03394) सी पी सिंह, एसएल साइफर, 15 अगस्त 2006
- (आईसी-38059) एम के गुप्ता, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-37626) एच डी मिश्रा, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-38870) जी पी एस कौशिक, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-39754) हिम्मत सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-4520) सुनील दीवान, एएडी, 01 मई 2007
- (आईसी-42134) आर के एल श्रीवास्तव, ईट कोर, 14 मार्च 2008 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2007 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
- (आईसी-45312) जे पी श्रीवास्तव, एएससी, 01 मई 2007
- (आईसी-42754) ए के नाथ, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-42933) संजय जोशी, एएससी, 01 मई 2007
- (आईसी-43080) बी पी हटवाल, एओसी, 01 मई 2007
- (आईसी-43157) एन पी सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43974) संजीव दूबे, एएससी, 01 मई 2007
- (आईसी-44861) जेश के पी, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44885) राजेंद्र शर्मा, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44922) आर पालसेरी, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-43359) एम पुरषोत्तमन, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007

- (आईसी-43368) ए टी वर्गीस, एएससी, 01 मई 2007
- (आईसी-43410) दीपक डे, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43528) यू एस विक्, एएससी, 01 मई 2007
- (आईसी-43603) ए के झाँ, एएससी, 01 मई 2007
- (आईसी-43450) इंदर जीत सिंह, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-42632) यश बाली, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-45477) मुकल भल्ला, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-45524) बी वी सुब्रमनियम, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-45531) बी जी जगदीश, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-45535) एस पी आर भोसले, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-45537) एच एस रुप, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-45540) राकेश ठाकुर, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-45541) टी पी जे चंद्रन, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-45546) डी जे एस चाहल, एसी, 21 जून 2007 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2007 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
- (आईसी-45549) एस सेठी, एएडी, 01 मई 2007
- (आईसी-45551) एम एस कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-45552) रंजीत सिंह, गार्ड, 01 मई 2007
- (आईसी-45555) मोनीश दत्ता, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-45562) जे जे वर्गीश, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-45564) दिनेश चड्ढा, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-45567) जे बरनाना, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-45582) के पी सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-45583) जे एन पाण्डेय, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-45585) बासुदेव मित्रा, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-45591) ए माथुर, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-43655) के विनोद कुमार, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-43657) पी डी नायडू, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-43658) हरी सिंह, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-43659) सुधीर कुमार, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-43660) संजय बब्बर, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-43661) बी आर पिल्लई, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-43664) ए के सोनी, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-43667) के एस बरार, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-43671) आर के चिक्कारा, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43673) गुरजप सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43674) तेजबीर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43675) एस आर धागा, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-43676) राजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43679) जी पी एस सिसोदिया, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43682) ए के सामंजा, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43683) एन कुमार, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-43686) संजीव राय, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43687) विवेक शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43688) कल्याण सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43689) पी एस बाजवा, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43690) एच एस थोडी, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-43693) रविन्द्र सिंह, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-43701) एम एस शर्मा, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-43702) पी राहुल, एएडी, 01 मई 2007
- (आईसी-43703) आर के माथुर, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-43704) एस क्यू अहमद, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-43710) टी के आइच, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43711) डी मल्होत्रा, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-43712) ए बी के सिबल, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-43717) मुकुन्द शर्मा, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-43718) डी एस यादव, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43720) ए त्रिपाठी, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-43722) डी के सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43723) एच के पंत, एएससी, 01 मई 2007
- (आईसी-43724) एस के चुग, एएडी, 01 मई 2007
- (आईसी-43725) एम के कटियार, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43728) आर बी बिरादर, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-43729) राजीव सक्सेना, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43730) विक्रान्त नायर, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-43731) संदीप पाण्डेय, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43734) योगेश सहगल, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-43735) जे सी तालुकदार, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-43737) राजीव थापर, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43745) गोविंद सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-43746) अदोष कुमार, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-43751) बी एस औजला, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007

(आईसी-43756) एस लांगे, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43762) एन भारती, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43766) आशुतोष काले, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43767) आर श्रीवास्तवा, एएडी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43768) मुकेश रस्तोगी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43770) शशि भूषण, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43771) एस मोहन, एएडी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43774) एम डी सूजा, मैक इन्फैन्ट्री, 07 जुलाई 2008 किन्तु  
 वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2007 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।  
 (आईसी-43776) ए के रोहिला, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43777) प्रशान्त पी ओक, आर्टी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43779) आलोक जैन, आर्टी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43780) दीपक बनर्जी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43782) आर पी शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43783) के एस सहरावत, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43786) आर ए खान, एसी, 22 जून 2007 किन्तु वरिष्ठता  
 प्रभावी 01 मई 2007 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।  
 (आईसी-43790) संजय सिंघल, आर्टी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43791) एम यू रेड्डी, सिग्नल्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-43793) जे के चौंसिया, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43796) समीर गुप्ता, आर्टी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43798) बी एस भावो, एओसी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43801) संजय बक्शी, ईएमई, 01 मई 2007  
 (आईसी-43803) एस एस प्रभु, आर्टी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43804) बी शर्मा, एएससी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43810) वासुदेश आर्या, आर्टी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43813) के बी एस भीमराज, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43814) वी सुब्रमनी, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-43815) सी शर्मा, एओसी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43817) एन जी रेलकर, सिग्नल्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-43820) जी आर एस रेड्डी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43822) एन आर बाबू, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43823) सतिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43831) वी एन खादिलकर, सिग्नल्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-43835) आई चटर्जी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43837) राजेन्द्र कुमार, सिग्नल्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-43842) एम के दास, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007

(आईसी-43843) अदिश यादव, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43847) पी जडेजा, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-43854) ए डी सरदाना, ईएमई, 01 मई 2007  
 (आईसी-43856) एम गनाना सेकरन, आर्टी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43858) मंजीत कुमार, सिग्नल्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-43859) एच एस गिल, एएससी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43862) अजय अहूजा, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-43867) ए एम गाडे, सिग्नल्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-43869) प्रदीप कौल, आर्टी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43872) प्रदीप भाटिया, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43875) विजय मेहता, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43877) आर दीवान, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43880) एम चतुर्वेदी, एएससी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43883) एस शर्मा, एएससी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43888) ए के जी कामोजी, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-43903) पी मुखर्जी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43904) ए पी सिंह, एओसी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43908) एस पी विश्वनाथ, एओसी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43912) शरद टंडन, एएससी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43913) बी शिवप्रसाद, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-43914) आर के महना, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43919) भूप सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43923) राजीव कपूर, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43934) अजित कपूर, आर्टी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43944) वी के बाहरी, आर्मी एविएशन, 01 मई 2007  
 (आईसी-43945) राजीव चौहान, एओसी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43954) एस के सांगवान, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43960) एम वी प्रभु, एएडी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43981) शरद कपूर, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-44014) एस वी सिंह, एईसी, 01 मई 2007  
 (आईसी-43685) भूपेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43709) वी एम संधू, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-43740) डी चंडोला, सिग्नल्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-43794) संजय नंद, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-43684) जे वी चौधरी, गार्ड, 01 मई 2007  
 (आईसी-43866) आर के कौशल, आर्टी, 01 मई 2007

- (आईसी-47938) आर के शर्मा, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47939) एस गंगवार, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-47941) आर के ज़िंदल, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47942) एन जी के प्रसाद, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-47972) सुनील कुमार, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47973) सी एम दुआ, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47979) पी एस राना, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-47984) एस के कटरिया, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47987) एस के तोमर, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47994) जे के रॉब, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47999) संदीप भल्ला, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-48009) गिरधर, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-48021) बी पाटिल, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47943) एस बी बाजपेयी, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47945) एस पी मिह, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-47946) ए के चौबे, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47949) वी एस के रेड्डी, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47952) पियुष कृष्णा, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47953) एस एस कुमार, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-48004) आर जय प्रसाद, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47954) अमृत लाल, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47957) एम के प्रसाद, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47959) बी एस चौहान, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47960) धीरज मोहन, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47961) एस के देव, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47962) पी के जी मिश्रा, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-47971) आर जी सोनो पंत, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-48002) अजय पाठक, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-47995) पी के श्रीवास्तव, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-45610) पी सत्यनाथ, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-45614) एस नरसिम्हा, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-45619) एस एस कटरिया, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-45621) चरन बीर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-45622) विनय बहल, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-45623) एस नागपाल, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-45629) बी केसर, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-45630) के सी सकलानी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-45641) आर सचदेव, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-45642) वी जी रेड्डी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-45672) तरुन मदान, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-44036) अतुल रावत, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44038) एच धर्मराजन, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44039) एस जोश, एएडी, 01 मई 2007
- (आईसी-44040) आर एस रावत, एओसी, 01 मई 2007
- (आईसी-44041) एम इन्दुराबालन, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44042) ए आर बाजपेयी, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44044) धीरज सेठ, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-44046) जे एस नंदा, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44048) पी एस जायसवाल, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44051) डी वी सिंह, गार्ड, 01 मई 2007
- (आईसी-44053) पी मोहनदासन, एएडी, 01 मई 2007
- (आईसी-44054) वी चौधरी, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44055) वी एम चंद्रन, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-44056) आर एस यादव, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-44057) राजीव मनकोटिया, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44059) एन बी परादकर, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44060) अनिल गौतम, एएडी, 01 मई 2007
- (आईसी-44062) अजय वर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44063) ए अरोडा, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44065) मानजिंदर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44067) ए एन झाँ, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44070) एस पी मलिक, एओसी, 01 मई 2007
- (आईसी-44072) के भारद्वाज, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-44073) आर प्रकाश, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-44074) एस एस बक्शी, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-44076) अनिल बी सिंदगी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44077) पी एस संधू, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44080) आर के सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44081) प्रमोद रावत, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-44082) ए आर एस कल्होन, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-44083) संजय पुरी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44086) रोहित महरोत्रा, सिग्नल्स, 01 मई 2007

- (आईसी-44087) एस भट्टाचार्जी, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-44088) राजवंत सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44090) वी धोमान, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-44092) गौतम डे, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-44093) जी एस सिद्धू, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44095) ए के काशिद, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-44096) आकाश पोपली, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-44098) एस महाजन, एएससी, 01 मई 2007
- (आईसी-44099) एन वार्षणेय, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-44101) एन के केशव, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-44105) पंकज दीक्षित, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44106) एन आर इंदुरकर, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44107) प्रदीप कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44110) पी के चौधरी, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44111) कृपाल सिंह, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-44113) कबीर, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44116) के एल खजुरिया, एओसी, 01 मई 2007
- (आईसी-44117) एच एस जामवालम, एएससी, 01 मई 2007
- (आईसी-44118) मंजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44120) एस एस दहिया, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44121) वी एन सावंत, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44123) लक्ष्मण सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44124) ब्रिजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44126) आर एस भट्टी, मेक इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44128) अरुण नायर, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44129) एस रणदेव, एएससी, 01 मई 2007
- (आईसी-44132) सुरेश चंद्र, एओसी, 01 मई 2007
- (आईसी-44133) संजीव रेलिया, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44134) एन ए प्रदीप, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-44136) रवि डीमरी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44142) एस डी मेहता, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-44143) पवन बजाज, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44145) चांद सरोहा, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44149) आर के सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44153) ए एम मदान, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44158) ए आर खादर, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-44160) विवेक मट्टा, एओसी, 01 मई 2007
- (आईसी-44161) जे भारद्वाज, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44167) एन पी सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44171) ए मल्होत्रा, एएससी, 01 मई 2007
- (आईसी-44173) ए त्रिपाठी, एएससी, 01 मई 2007
- (आईसी-44175) लिमये एस एम, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44180) एस त्यागी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44191) एस एस डडवाल, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44193) रणबीर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44200) दीपक सैनी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44201) आईपी सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44202) अरविंद कपूर, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-44206) वी वी राव, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44212) पी के वर्मा, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44214) मनजीत सिंह, एओसी, 01 मई 2007
- (आईसी-44218) अजय मलिक, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-44224) आर बुटलिया, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-44227) एम आर एम वी जोगारथ, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44228) विक्रम सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44229) अमित सिन्हा, गार्ड, 01 मई 2007
- (आईसी-44230) एन जेठवानी, इंटर कोर, 01 मई 2007
- (आईसी-44239) पी एम सिंह, एएससी, 01 मई 2007
- (आईसी-44244) सुनील वासन, ईएमई, 01 मई 2007
- (आईसी-44247) संजय कपूर, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44250) रजनीश सिन्हा, एसी, 01 मई 2007
- (आईसी-44254) नागिन्द्र सिंह, इंजीनियर्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44256) के बी यादव, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44257) ए के त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44258) गिरीश सूरी, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44263) दीपक त्यागी, सिग्नल्स, 01 मई 2007
- (आईसी-44266) ए गांगुली, आर्टी, 01 मई 2007
- (आईसी-44270) पी एस निकम, इन्फैन्ट्री, 04 फरवरी 2008 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2007 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
- (आईसी-44273) एस के सतपथी, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007
- (आईसी-44277) एम एस शेरगिल, एओसी, 01 मई 2007
- (आईसी-44280) जे एस सामवाल, एसी, 01 मई 2007

(आईसी-44293) के एस दलाल, सिग्नल्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-44297) संदीप डीगरा, सिग्नल्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-44301) हरजिंदर सिंह, ईएमई, 01 मई 2007  
 (आईसी-44312) समीर जैन, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-44323) वी वी खानोलकर, ईएमई, 01 मई 2007  
 (आईसी-44325) आर के शर्मा, सिग्नल्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-44327) एस आई खान, एएडी, 01 मई 2007  
 (आईसी-44330) एम एम रामचंद्रा, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-44340) राविन्द बाली, ईएमई, 01 मई 2007  
 (आईसी-44346) टी जग्गी, ईएमई, 01 मई 2007  
 (आईसी-44348) अमित झाँ, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-44403) एस खन्ना, एएससी, 01 मई 2007  
 (आईसी-44409) वेणु गोपाल, एओसी, 01 मई 2007  
 (आईसी-44414) ए भूषण, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-44261) ब्रिज गोपाल, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007  
 (आईसी-44311) सुनील कुट्टी, ईएमई, 01 मई 2007  
 (आईसी-44139) अजय सूद, एएससी, 01 मई 2007  
 (आईसी-44176) बी जी पाण्डे, गार्ड्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-44211) आई एम लाम्बा, आर्टी, 01 मई 2007  
 (आईसी-44272) जी पी एस विक्र, आर्टी, 01 मई 2007  
 (आईसी-44275) पी रमेश, आर्टी, 01 मई 2007  
 (आईसी-48430) आर खेत्रपाल, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-48435) मुकेश कुमार, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-48439) बी मुखर्जी, सिग्नल्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-48443) वी के अग्रवाल, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-48449) एम भाटी एन एफ आर, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-48476) के के नायक, सिग्नल्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-48477) के बी मारवाह, ईएमई, 01 मई 2007  
 (आईसी-48480) एम बी शशिधर, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-48484) शाहिद शब्बर, ईएमई, 01 मई 2007  
 (आईसी-48427) अरविन्द वालिया, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-48429) जी पी सिंह, ईएमई, 01 मई 2007  
 (आईसी-48442) जाँय के, इंजीनियर्स, 01 मई 2007  
 (आईसी-48478) एम सो भारद्वाज, ईएमई, 01 मई 2007  
 (आईसी-48437) जी सी सामंत, ईएमई, 01 मई 2007  
 (आईसी-48444) के वी आनंद कुमार, ईएमई, 01 मई 2007

(आईसी-48473) के के कपूर, ईएमई, 01 मई 2007

(आईसी-48502) अनिल सिंह, इंजीनियर्स, 01 मई 2007

(आईसी-48446) एस बी मोहारिल, इंजीनियर्स, 01 मई 2007

(एसएल-03494) वी के धर्मारजन, एसएलटीओटी, 06 अक्टूबर 2008 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2007 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

(एसएल-03564) काश्मीर चांद, एसएलएई, 01 मई 2007

(एसएल-03570) अशोक बेदकर, एसएलईआर/टीईओ, 07 अप्रैल 2008 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2007 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

(एसएल-03579) रणवीर सिंह, एसएलक्यूएम, 16 जून 2008 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 मई 2007 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

वैयक्तिक नं., नाम, आर्म, मूल रैंक की तिथि

(एसएल-02934) एस पी सिंह, एस एल टी ई ओ, 30 मई 2006 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 15 मार्च 2006 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव डाले।

अजय गोयल

उप निदेशक

एम एस-8ए

थल सेना शाखा

सं. 443, दिनांक 19 जून 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ले. कर्नल/कर्नल (टीएस) से कर्नल (चयनित और समकक्ष) के पद पर

एमआर नं., नाम

टिप्पणी

(एमआर-05777ए) डी वर्डर

09 जनवरी 2009 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।

(एमआर-05873पी)

आई वी एस गहलोत

30 जनवरी 2009 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।

(एमआर-05019एच) आर बक्शी

22 जनवरी 2009 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19 दिसम्बर 2007 से दी जाती है।

एमआर नं., नाम	टिप्पणी	सेना शाखा
(एमआर-06113वाई) वी डी वेंकटरचलम	25 जुलाई 2008 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06 जनवरी 2008 से दी जाती है।	सं. 445, दिनांक 22 जून 2009--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--  नियमित सेना अल्पकालीन सेवा कमीशन (मेन) कप्तान से मेजर
(एमआर-05975एल) डी ओझा	16 फरवरी 2009 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09 जून 2008 से दी जाती है।	एमएम नं., नाम, आर्म, वरिष्ठता तिथि, कोर्स सं., पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की संशोधित तिथि, मेजर दिनांक से
(एमआर-05884एफ) पी पुरी	23 जनवरी 2009 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है।	(एसएस-41156) मुनीष ठकुर, इंजीनियर्स, 19 मार्च 2003, 22(टैक), 19 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2009 (एसएस-41162) आकाश कपूर, सिग्नल्स, 19 मार्च 2003, 22(टैक), 19 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2009
(एमआर-06197एक्स) के के गर्ग	08 फरवरी 2009 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है।	(एसएस-41165) वाघचौरे कौश्लुम रमेश, इंजीनियर्स, 19 मार्च 2003, 22(टैक), 19 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2009 (एमएम-41167) अमित सिरोही, इंजीनियर्स, 19 मार्च 2003, 22(टैक), 19 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2009
(एमआर-05400डब्ल्यू) के सरिकर	12 मार्च 2009 वेतन एवं पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 फरवरी 2009 से दी जाती है।	(एमएस-41171) सचिन फोगत, सिग्नल्स, 19 मार्च 2003, 22(टैक), 19 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2009 (एसएस-41173) मासराम नागेन्द्रसिंह श्यामराव, सिग्नल्स, 19 मार्च 2003, 22(टैक), 19 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2009
(एमआर-05395डब्ल्यू) एस कौशल	03 फरवरी 2009	(एसएस-41180) पाठक अनिल वसंतराव, ईएमई, 19 मार्च 2003, 22(टैक), 19 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2009
(एमआर-05398के) आर के गुप्ता	03 फरवरी 2009	(एसएस-41181) कटवाले आरिश्चित चारूदत्ता, इंजीनियर्स, 19 मार्च 2003, 22(टैक), 19 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2009
(एमआर-06204एच) आर सी साहनी	03 फरवरी 2009	(एसएस-41185) उदयादित्य मुखर्जी, ईएमई, 19 मार्च 2003, 22(टैक), 19 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2009
	यश पाण्डे ब्रिगेडियर उप महानिदेशक ससेचिसे (एच आर)	(एसएस-41187) राजदीप भट्टाचार्यजी, इंजीनियर्स, 19 मार्च 2003, 22(टैक), 19 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2009
	स्थायी आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सेवा (स्थायी कमीशन)	(एसएस-41191) कुमार आदित्य, सिग्नल्स, 19 मार्च 2003, 22(टैक), 19 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2009
	सं. 444, दिनांक 22 जून 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं:--	(एसएस-41194) आशीष राव, इंजीनियर्स, 19 मार्च 2003, 22(टैक), 19 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2009
	ले. कर्नल से कर्नल	(एसएस-41197) परशांत गौर, सिग्नल्स, 19 मार्च 2003, 22(टैक), 19 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2009
	पद और नाम, व्यक्तिगत सं., पदोन्नति की तारीख	एस एस नं., नाम, आर्म, मेजर दिनांक से और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की संशोधित तिथि
	कर्नल बी बी अहलूवालिया (एनआर-16015एम), 12 अक्तूबर 2007	(एसएस-39793) पी जोहन जेबराज, आर्टी, 07 मई 2003, 07 मई 2003
	कर्नल के सरोजिनी (एनआर-15570एन), 16 नवम्बर 2004	(एमएस-39797) गौरव सेठ, इन्फैंट्री, 07 मई 2003, 07 मई 2009
	ले. कर्नल (सेलेक्ट) से ले. कर्नल	(एसएस-39815) सचिन बलवान, आर्टी, 07 मई 2003, 07 मई 2009
	ले. कर्नल आर लीनाकुमारी (एनआर-17235एच), 17 मितम्बर 2007	(एसएस-39828) के श्यामा सागर पानीग्रही, आर्टी, 07 मई 2003, 07 मई 2009
	टी पदमिनी मेजर जनरल अतिरिक्त महानिदेशक एमएनएस	



(एसएस-39881) जोहन चाको वरघेसे, इंजीनियर्स, 07 मई 2003, 07 मई 2009

(एसएस-39889) विजय प्रकाश शर्मा, आर्टी, 07 मई 2003, 07 मई 2009

(एसएस-39900) मनदीप सिंह, ईएमई, 07 मई 2003, 07 मई 2009

(एसएस-39907) कुश शानदिल, इन्फैन्ट्री, 07 मई 2003, 07 मई 2009

(एसएस-39908) रोहित चतुर्वेदी, एएडी, 07 मई 2003, 07 मई 2009

(एसएस-39919) धिमैह एम सी, इन्फैन्ट्री, 07 मई 2003, 07 मई 2009

(एसएस-39925) मेहरीश कटारिया, इन्फैन्ट्री, 07 मई 2003, 07 मई 2009

(एसएस-39930) नितिन कौरा, एसी, 07 मई 2003, 07 मई 2009

(एसएस-39941) मनु अवस्थी, एओसी, 07 मई 2003, 07 मई 2009

जसवन्त सिंह  
संयुक्त निदेशक  
एमएस-8सी

वायु शाखा

सं. 446, दिनांक 22 जून 2009--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर मार्शल के मूल रैंक में:--

जे नेरी (13711), वै ई (वै), 29 अप्रैल 2009

उड़ान शाखा

एयर मार्शल के मूल रैंक में:--

डी सी कुमारिया (13366), उ (पा), 12 मार्च 2009

संभारिकी शाखा

एयर मार्शल के मूल रैंक में:--

एस श्रीराम (13408), संभा, 01 अप्रैल 2009

शिक्षा शाखा

एयर वाइस मार्शल के मूल रैंक में:--

सतेन्द्र कुमार (16283), शिक्षा, 30 जनवरी 2009

ए के सिंह  
उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

वायु शाखा

सं. 447, दिनांक 22 जून 2009--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

उड़ान शाखा

एयर वाइस मार्शल के मूल रैंक में:--

जे चौहान (14079), उ पा, 21 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008(केवल वरियता के लिए)

आर के जौली (14083), उ पा, 20 जून 2008/01 अप्रैल 2008(केवल वरियता के लिए)

पी सिंह (14086), उ पा, 01 अप्रैल 2008

आर के शर्मा (14088), उ पा, 01 अप्रैल 2008

पी कुमार (14093), उ पा, 01 मई 2008

पी एस गिल (14097), उ पा, 01 मई 2008

के वी शंकर  
उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

वायु शाखा

सं. 448, दिनांक 23 जून 2009--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में:--

वाई हांडा (17821), वै ई (वै), 01 जनवरी 2009

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन एन आर चिटनिस (17826) वै ई (यां) के नीचे में आयेगा)

यू पी सिंह (17829), वै ई (वै), 19 जुलाई 2009

के झा (16169), वै ई (यां), 01 जनवरी 2006

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन डी एन त्रिपाठी (15958) वै ई (वै) के ऊपर आयेगा)

ए के सिंह  
उप निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2बी

वायु शाखा

सं. 449, दिनांक 23 जून 2009--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं:--

## भारतीय वायु सेना

## उड़ान शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में:--

ए के द्विवेदी (16979), उ पा, 01 सितम्बर 2006

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन जे सिंह (16969) उ पा और ए गोलानी (16986) उ पा के बीच में आयेगा)

## प्रशासनिक शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में:--

एन के शर्मा (17038), प्रशा, 14 जनवरी 2008

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन एम एस जी मनक (17035) प्रशा के नीचे आयेगा)

## अशोक चक्रपानी

उप निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2 (बी)

-----

## वायु सेना

सं. 450, दिनांक 23 जून 2009--माननीय राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं:--

## भारतीय वायु सेना

स्क्वाँ ली. से विंग कमांडर के मूल रैंक पर

## ए ई (एल) शाखा

बी के पाण्डे (23892), 26 मई 2008 से प्रभावी

पी गोयल (23887), एन एकमन्दिकर (23901), 26 नवम्बर 2007 से प्रभावी

## ए ई (एम) शाखा

बालासुब्रमणियम वी (24375), राजीव चक्रवर्ती, (24378), अरोड़ा वी (24368), जी एल नागेन्द्र (24372), विक्रम पटेल (24440), वी सिंह (24380), गुडिबंदा ए के (24382), आर के सिन्हा (24369), विनय गोविन्दराव नदकपर्णी (24367), जोगिन्दर कुमार (24362), वी शिवसुब्रमणियम (24730), अहमद फरीद (24364), वी श्रीवत्सन (24381), ए के मलिक (24356), गणेश बी टी (24374), ए अरुणाचलेश्वरन (24376), पी कुमार (24360), पी के नरेन्द्र (24366), वी किरण कुमार (24373), के ए राव (24355), रमेश कुमार (24729), के के गर्ग (24358)--22 नवम्बर 2008 से प्रभावी।

## ए ई (एल) शाखा

अभय सिंह नरैनिया (24395), जे के पी मोतिल (24396), आर एन दीपक (24384), सम्राट बैनर्जी (24417), जी के नायर (24409), एस रावत (24407), डी कुमार (24434), गुप्ता अनुज (24403), एच एस सांगर (24397), ए परवेज़ (24390), हितेन्द्र वत्स (24385), एम पी शर्मा (24401), एन के सूर्यदेवरा (24423), धीरज रज घई (24425), राजेश के डी ए (24412), यू शर्मा (24405), एस पात्रा (24418), एस सी नाथन (24419), दुर्गा प्रसाद मिश्रा (24733), वशिष्ठ

(24424), प्रसन्ना एच एन (24388), असुति एम (24400), के एम खान (24402), राजेश एन नायर (24410), आर कोट्टमराजू (24420), आर एम हरिकुमार (24422), अनिमेष कुमार अग्रवाल (24387), विनय भारद्वाज (24392), भाटिया आर के (24394), ए रैना (24399), पी एस श्रीनिवासन (24404), एन मोहन थपलियाल (24411), वी आनन्द (24415), रमानी डी (24435), अरविन्द नागर (24389), हरीश नाथ तिवारी (24732), राम मेहर सिंह (24736), सत्य प्रकाश राठौर (24734), रावत आर एस (24406)--22 नवम्बर 2008 से प्रभावी।

फ्लाइट लेफ्टि. से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक पर

## अल्प सेवा कमीशन

## प्रशासन शाखा

(सुश्री) पूजा ठाकुर (26611), (सुश्री) नवरतन कौर (26612), (सुश्री) शालिनी चौधरी (26617), (सुश्री) पारुल मिश्रा (26614), (सुश्री) एस मैथानी (26618), (सुश्री) प्रतिभा शर्मा (26613)--16 जून 2007 से प्रभावी।

## लेखा शाखा

(श्रीमती) डेजी मेहता (26619), (श्रीमती) प्रीति बहुगुणा (26624), (श्रीमती) नमिता आनंद शर्मा (26621)--16 जून 2007 से प्रभावी।

## शिक्षा शाखा

(सुश्री) नेगी पूनम (26626), 16 जून 2007 से प्रभावी।

## मेट शाखा

(श्रीमती) विनिला वर्मा (26212), 16 जून 2007 से प्रभावी।

(सुश्री) टी उप्पल (27278), 21 दिसम्बर 2008 से प्रभावी।

## प्रशासन शाखा

(श्रीमती) गुरप्रीत अरवाल (27058), (सुश्री) अनुपमा सिंह (27054), (सुश्री) हेमलता अय्यर (27062), (सुश्री) एल अबिरामी (27060), (श्रीमती) भारती डिमरी (27055), (सुश्री) गीता एम आर मन्हास (27057), (सुश्री) पी सजिनी (27059)--22 जून 2008 से प्रभावी।

## लेखा शाखा

(सुश्री) आशु मसदान (27065), (सुश्री) तनुश्री पंत (27064)--22 जून 2008 से प्रभावी।

## शिक्षा शाखा

(सुश्री) पुष्पा ठाकुर (27066), 22 जून 2008 से प्रभावी।

## मेट शाखा

(सुश्री) सपना देवी (26639), 22 जून 2008 से प्रभावी।

## प्रशासन शाखा

(सुश्री) नेहग डी (27284), (सुश्री) कालरा एन (27286), (सुश्री) आर पी पिल्लै (27280), (सुश्री) डी बी धस्माना (27281), (श्रीमती) अस्मिता भावडे (27287), (श्रीमती) पी के घुगन (27283), (सुश्री) ठाकुर एन (27285)--21 दिसम्बर 2008 से प्रभावी।

## संभारिकी शाखा

(सुश्री) ठाकुर एम (27291), (सुश्री) सक्सेना वी (27290), (सुश्री) भदौरिया ए (27293), (सुश्री) ठाकुर ए (27289)--21 दिसम्बर 2008 से प्रभावी।

## एई (एल) शाखा

जे ए ए अली (27417)--09 जनवरी 2009 से प्रभावी।

डी वी नायर (27422)--16 जनवरी 2009 से प्रभावी।

गुरुप्रीत सिंह (27427)--17 जनवरी 2009 से प्रभावी।

आर रमण सुंदरम (27433)--20 जनवरी 2009 से प्रभावी।

## प्रशासन शाखा

रवि जैन (27085), संजीव सिंह (27082), शिवराज सिंह (27080), ए के प्रियदर्शी (27074), संजीव वज्जीर (27075), विकास (27077), बिजेन्द्र सिंह (27071), सुभाष चन्दर (27073), नरेन्द्र पी उनियल (27100), टी वी गोपाल कृष्ण (27099), चेतन कुमार जैन (27107), एस एच कामारकर (27093), डी के सिंह (27083)--28 जून 2008 से प्रभावी।

एन विजय कुमार

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3 (डी)

-----

## सेना शाखा

सं. 451, दिनांक 23 जून 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवा निवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

(आईसी-43452) कर्नल रजनीश कपूर, ईएमई, 05 अक्टूबर 2008 (अपराह)

(आईसी-39657) कर्नल (टीएस) सुनील कुमार पांडेय, ईएमई, 07 मार्च 2009 (अपराह)

(आईसी-39527) कर्नल (टीएस) विवेक चौधरी, एसएम आर्टी, 27 अक्टूबर 2008 (अपराह)

(आईसी-38724) कर्नल (टीएस) अतुल हांडा, आर्टी, 10 जनवरी 2009 (अपराह)

(आईसी-44184) ले. कर्नल एच शंकर, ईएमई, 18 सितम्बर 2007 (अपराह)

(आईसी-42763) कर्नल राजीव नेहरा, एससी, 03 फरवरी 2009 (अपराह)

(आईसी-38986) कर्नल किशोर चन्द्र पाधी, आर्टी, 16 मार्च 2008 (अपराह)

(आईसी-45197) ले. कर्नल (टीएस) गुरमिंदर सिंह, आर्टी, 07 जून 2008 (अपराह)

(आईसी-35396) कर्नल सुबीर मुखर्जी, ईएमई, 07 मार्च 2009 (अपराह)

(आईसी-38893) कर्नल शमशेर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 17 अगस्त 2008 (अपराह)

(आईसी-39068) कर्नल किरणजीत सिंह, एसी, 03 सितम्बर 2008 (पूर्वाह)

(आईसी-38492) कर्नल (टीएस) एस के महापात्रा, मैक इन्फैन्ट्री, 21 मई 2008 (अपराह)

(आईसी-37538) कर्नल (टीएस) भगवत दयाल, ईएमई, 31 जुलाई 2008 (अपराह)

(आईसी-30467) कर्नल (टीएस) जे एस रंधावा, एसी, 31 मई 2006 (अपराह)

(आईसी-39154) कर्नल सुजीत दत्ता, मैक इन्फैन्ट्री, 01 अप्रैल 2008 (अपराह)

(आईसी-38737) कर्नल (टीएस) ए एस विर्क, एसी, 31 अगस्त 2008 (अपराह)

(आईसी-37796) कर्नल आर के मोहन्ती, ईएमई, 10 दिसम्बर 2008 (पूर्वाह)

(आईसी-34907) कर्नल जेकब मैथ्यू, ईएमई, 29 जुलाई 2008 (अपराह)

(आईसी-38595) कर्नल भारत जिंधन, ईएमई, 20 दिसम्बर 2008 (अपराह)

(आईसी-38332) कर्नल (टीएस) टी एस विरदी, एएडी, 03 मार्च 2009 (अपराह)

(आईसी-41827) कर्नल राजू पीटर, आईसी, 28 फरवरी 2009 (अपराह)

(आईसी-36944) कर्नल ए के शर्मा, आर्टी, 30 नवम्बर 2008 (अपराह)

(आईसी-34115) कर्नल (टीएस) पी अग्रवाल, इन्फैन्ट्री, 18 अगस्त 2008 (अपराह)

(आईसी-38700) कर्नल बेन्ज के जेकब, इन्फैन्ट्री, 30 नवम्बर 2008 (अपराह)

(आईसी-37712) ले. कर्नल पीतम्बरन सी, इन्फैन्ट्री, 11 अक्टूबर 2008 (अपराह)

(आईसी-41878) कर्नल जे पी आर इस्माइल, इन्फैन्ट्री, 20 अक्टूबर 2008 (अपराह)

(आईसी-41978) कर्नल जे पी पोटलिया, इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2008 (अपराह)

(आईसी-37717) कर्नल यू एस राठौर, इन्फैन्ट्री, 10 जनवरी 2009 (अपराह)

(आईसी-35502) कर्नल एच एस पठानिया, एसएम, इन्फैन्ट्री, 03 फरवरी 2009 (अपराह)

(आईसी-35781) कर्नल आनन्द बसेरा, इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2008 (अपराह)

(आईसी-40963) कर्नल अमिताभ अमित, इन्फैन्ट्री, 03 अक्टूबर 2008 (अपराह)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा उनको अधिकारियों के नियमित आरक्षी कोटे (क्लास) अधीन एस ए आई 10/S/63 यथा संशोधित में स्थान्तरित करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आईसी-45822) लेफ्टि. कर्नल भूपिंदर जीत सिंह घटोरा, इंजीनियर, 12 अक्टूबर 2008 (अपराह)

(आईसी-44636) लेफ्टि. कर्नल रोहित कपिला, एओसी, 31 अगस्त 2007 (अपराह)

(आईसी-42880) लेफ्टि. कर्नल अनिल वर्मा, ईन्ट, 09 जुलाई 2007 (अपराह)

(आईसी-42474) लेफ्टि. कर्नल अनिल कुमार सेठी, सिग्नल्स, 26 जुलाई 2006 (अपराह)

(आईसी-44795) लेफ्टि. कर्नल अरुण चौपड़ा, एओसी, 26 दिसम्बर 2007 (अपराह)

(आईसी-47309) लेफ्टि. कर्नल जगदीश सिंह, एओसी, 01 जुलाई 2007 (अपराह)

(आईसी-39711) कर्नल (टीएस) मुरली नायर, एओसी, 01 जुलाई 2007 (अपराह)

(आईसी-40231) लेफ्टि. कर्नल अजय सहाय, एओसी, 16 अक्टूबर 2007 (अपराह)

(आईसी-45503) लेफ्टि. कर्नल सुनील शर्मा, एओसी, 03 मार्च 2007 (अपराह)

(आईसी-47852) लेफ्टि. कर्नल रतन श्रीवास्तव, एओसी, 23 दिसम्बर 2007 (अपराह)

(आईसी-43041) लेफ्टि. कर्नल इन्द्रबीर सिंह मंगत, एओसी, 19 अक्टूबर 2007 (अपराह)

(आईसी-43112) लेफ्टि. कर्नल अरुण कुमार सिंह, सिग्नल्स, 09 मार्च 2007 (अपराह)

(आईसी-45310) लेफ्टि. कर्नल वी के राठौर, एसएमवीएसएम, ईन्ट, 31 जुलाई 2007 (अपराह)

(आईसी-49557) लेफ्टि. कर्नल सी एस त्यागराज, ईन्ट, 14 अप्रैल 2007 (अपराह)

(वी-0404) लेफ्टि. कर्नल विवेक चौहान, आरवीसी, 10 अक्टूबर 2007 (अपराह)

(आईसी-43623) लेफ्टि. कर्नल दीपक चौधरी, सिग्नल्स, 16 जनवरी 2008 (अपराह)

(आईसी-42721) लेफ्टि. कर्नल आर वी देवभंकर, सिग्नल्स, 09 फरवरी 2008 (अपराह)

(आईसी-47501) लेफ्टि. कर्नल अशोक दिग्घे, सिग्नल्स, 12 मार्च 2008 (अपराह)

(आईसी-44137) लेफ्टि. कर्नल विवेक भट्ट, सिग्नल्स, 30 सितम्बर 2007 (अपराह)

(आईसी-43825) लेफ्टि. कर्नल एस के एम श्रीधरन, इंजीनियर, 24 अगस्त 2007 (अपराह)

एस के चक्रवर्ती  
संयुक्त निदेशक  
एमएस/पीआर

सेना शाखा

शुद्धिपत्र

सं. 452, दिनांक 24 जून 2009--माननीय राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं:-

नियमित सेना

(स्थायी कमीशन)

मेजर से लेफ्टि. कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 12 मई 2001 (भाग I खण्ड 4) के शीर्षक "नियमित सेना स्थाई कमीशन" एवं उप शीर्षक "मेजर से लेफ्टि. कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में" में निम्नलिखित शुद्धिकरण किया जाता है :-

के स्थान पर :

(आईसी-37139) टी डी जॉसफ, आर्मंड कोर, 01 जून 1998

पढ़ा जाए :

(आईसी-37139) टी जे डेविस, आर्मंड कोर, 01 जून 1998

अजय गोयल  
उप निदेशक  
एमएस-8ए

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th August 2009

## INTERGRATED HEADQUARTER-MIN DEFENCE (NAVY)

(Dte of Admin/Civ Section)

No. 436, dated 18th June 2009—The President is pleased to appoint the following officers of AFHQ Civil Service as Dy Director (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with GP Rs. 6,600/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period mentioned against names or till regular incumbent becomes available or till such time the officer retires, whichever is earlier:—

Shri KC Bhardwaj, 13 Jan 2009 to 13 Aug 2009

Shri MK Jha, 13 Jan 2009 to 13 Aug 2009

Shri US Latwal, 13 Jan 2009 to 13 Aug 2009

Shri Sudhir Kumar, 13 Jan 2009 to 13 Aug 2009

SHANKAR SINGH  
Director (S)

## NATIONAL CADET CORPS

No. 437, dated 18th June 2009—The Undermentioned is granted the honorary rank of Comodore-in-Chief of the National Cadet Corps for the period of his appointment as Chief of the Air Staff:—

Air Chief Marshal PV Naik, PVSM, VSM, ADC,  
01 Jun 2009

Chief of the Air Staff

Air Headquarters

Vayu Bhawan

New Delhi-110011

B C SARMAH  
Brig, Dy Dir Gen (MS)

## DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 438, dated 18th June 2009—The President is pleased to make the following appointments:—

The undermentioned individual (s) to be temporary Scientist (s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the dates shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (Pre revised):—

Pin No., Name, Estt/Lab and Date of Joining

2006AB1009 Shri Ranjith T, ADE, Bangalore, 02 Nov 2006

2008AB1091 Shri Apurba Kumar De, ASL (Panagarh), Hyderabad, 21 May 2008

2008AB1085 Shri Sambhav Verman, ATVP, Delhi, 21 May 2008

2008AB1155 Shri Mallikarjuna Bommu, CEMILAC, Bangalore, 21 May 2008

2008AB1505 Shri Manish Pratap Singh, DEAL, Dehradun, 16 Sep 2008

2008AB1253 Shri Satender Singh Dharmsktu, DEAL, Dehradun, 21 May 2008

2008AB1507 Shri Saurav Pratap Singh, DEBEL, Bangalore, 11 Nov 2008

2006AB1248 Shri Ravindranadh Babbili, DMRL, Hyderabad, 27 April 2006

2008AB1364 Shri Gaurav Saxena, DRDL, Hyderabad, 21 May 2008

2008AB1038 Shri Manish Ranjan, GTRE, Bangalore, 21 May 2008

2008AB1040 Shri Vivek Kumar Jha, GTRE, Bangalore, 21 May 2008

2006AB1035 Shri Ravi Bhaisare, GTRE, Bangalore, 27 April 2006

2005AB1473 Ms R Vijayalakshmi, HEMRL, Pune, 22 Aug 2005

2008AB1169 Shri Sandeep Anand, LRDE, Bangalore, 21 May 2008

2008AB1173 Shri Heerendra Kumar Rai, LRDE, Bangalore, 21 May 2008

2008AB1188 Shri Rahul Kumar Vishwakarma, Naval Dockyard, Mumbai, 21 May 2008

2008AB1215 Shri Linthish P, NPOL, Kochi, 21 May 2008

2008AB1371 Shri Kapil Narang, SSPL, Delhi, 21 May 2008

2008AB1385 Shri Hardeep Singh, TBRL, Chandigarh, 21 May 2008

T ABDURRASSAK  
Jt. Dir (Pers)

## REGULAR ARMY

## MILITARY NURSING SERVICES

(Permanent Commission)

No. 439, dated 18th June 2009—The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in the Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as

amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 27 Jan 2008 (Seniority from 27 Jan 2007 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing): --

To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number and Date of Birth

- Lt. Deepika (NR-21700F), 27 Jul 1984  
 Lt. Namrata Kriplani (NR-21701K), 07 Nov 1983  
 Lt. Poonam Singh (NR-21702M), 20 Aug 1981  
 Lt. Jisha Johnson (NR-21703P), 20 Feb 1985  
 Lt. Janki Bhatt (NR-21704X), 16 May 1978  
 Lt. Anita Dass (NR-21705A), 28 Feb 1983  
 Lt. Arjita Raturi (NR-21706H), 03 Nov 1981  
 Lt. Meenakshi Mohal (NR-21707L), 08 Aug 1984  
 Lt. Priyamvada Chaubey (NR-21708N), 16 Apr 1985  
 Lt. Tamanna (NR-21709W), 02 Feb 1983  
 Lt. Lucy Amma Tirkey (NR-21710L), 15 Jan 1984  
 Lt. Sunita Kushwaha (NR-21711N), 04 Jan 1985  
 Lt. Ruchika Sharma (NR-21712W), 10 Jan 1985  
 Lt. Meena Sharma (NR-21713Y), 14 Nov 1982  
 Lt. Sapna Riyal (NR-21714F), 14 Aug 1984  
 Lt. Soubhagya KM (NR-21715K), 26 Nov 1982  
 Lt. Geemol John (NR-21716M), 06 Mar 1985  
 Lt. Mousumi Das (NR-21717P), 30 Jun 1980  
 Lt. Sindhu PK (NR-21718X), 18 Jul 1980  
 Lt. Sushmita Chakravarty (NR-21719A), 31 May 1982

The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in the Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India. Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 29 Aug 2008:---

To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number and Date of Birth

- Lt. Livea Albeena Pereira (NR-21776F), 26 Nov 1986  
 Lt. Saranya PV (NR-21777K), 13 May 1987  
 Lt. Karishma Khugshal (NR-21778M), 19 Jun 1985  
 Lt. Remya Raj (NR-21779P), 19 Sep 1985  
 Lt. Nancy Mathews (NR-21780K), 02 Jan 1986  
 Lt. Dhanya Mariya (NR-21781M), 08 Sep 1986  
 Lt. Jannat Takkar (NR-21782P), 10 Dec 1987  
 Lt. Priya Poonia (NR-21783X), 01 Aug 1986  
 Lt. Sudha Kumari (NR-21784A), 16 Mar 1987

Lt. Sreelakshmi Mohan (NR-21785H), 04 Nov 1986

- Lt. Anuja Paurel (NR-21786L), 19 Jan 1987  
 Lt. Megha K (NR-21787N), 27 Mar 1987  
 Lt. Banti Pachauri (NR-21788W), 19 Jul 1986  
 Lt. Deepa RR (NR-21789Y), 20 Sep 1986  
 Lt. Guravdeep Kaur (NR-21790N), 20 Dec 1986  
 Lt. Santosh Kumari (NR-21791W), 02 Feb 1984  
 Lt. Sarita Kumari (NR-21792Y), 21 Oct 1986  
 Lt. Khushboo Rana (NR-21793F), 03 Jul 1986  
 Lt. Kabitha C (NR-21794K), 01 Jul 1986  
 Lt. Surekha Mudi (NR-21795M), 15 Nov 1983  
 Lt. Deepali Rawat (NR-21796P), 19 Apr 1985  
 Lt. Jyoti (NR-21797X), 16 Dec 1985  
 Lt. Nisha Thyagrajan (NR-21798A), 01 Jul 1986  
 Lt. Manju Radhakrishna (NR-21799H), 26 Sep 1986  
 Lt. Babita Kumari (NR-21800M), 24 Jun 1985  
 Lt. Kusum Lata (NR-21801P), 18 Mar 1987  
 Lt. Samiksha Rathore (NR-21802X), 14 Sep 1983  
 Lt. Sudarshana Bomzon (NR-21803A), 04 Sep 1985  
 Lt. Tanu Raj Upadhyai (NR-21804H), 13 Oct 1986  
 Lt. Asha Negi (NR-21805L), 12 Jan 1986  
 Lt. Rajnish (NR-21806N), 15 Sep 1984  
 Lt. Anu Basnet (NR-21807W), 24 Dec 1984

The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in the Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 19 Aug 2008 (Seniority from 19 Aug 2007 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing):—

To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number and Date of Birth

- Lt. Arjita (NR-21749X), 27 Nov 1986  
 Lt. Naveena Dabas (NR-21750M), 12 Feb 1985  
 Lt. Anjana Kumeri (NR-21751P), 27 Mar 1985  
 Lt. Nupur Sachdeva (NR-21752X), 02 Mar 1986  
 Lt. Nisha Singh (NR-21753A), 01 Aug 1986  
 Lt. Tanushree Mitra (NR-21754H), 05 Jul 1984  
 Lt. B Roshni (NR-21755L), 27 Mar 1986  
 Lt. Anu Zacharia (NR-21756N), 25 Aug 1985  
 Lt. Radhika Das (NR-21757W), 24 Apr 1985

Lt. Shweta Dahia (NR-21758Y), 13 Jul 1985  
 Lt. Krishna Bist (NR-21759F), 18 Oct 1983  
 Lt. Kavita Rajwar (NR-21760W), 06 Aug 1985  
 Lt. Aswathy Vijayan (NR-21761Y), 05 May 1985  
 Lt. Brinda P (NR-21762F), 16 Feb 1986  
 Lt. Deepika Shekhawat (NR-21763K), 29 Mar 1986  
 Lt. G Geethu (NR-21764M), 06 Sep 1986  
 Lt. Lily Samantha (NR-21765P), 30 Oct 1984  
 Lt. Sangeetha Philip (NR-21766P), 13 Mar 1985  
 Lt. Jyoti Saha (NR-21767A), 12 Apr 1983  
 Lt. Anju Sudersan K (NR-21768H), 06 May 1986  
 Lt. Renjini G Krishnan (NR-21769L), 29 Nov 1984  
 Lt. Arpita Chakraborty (NR-21770A), 27 Aug 1985  
 Lt. Hima John (NR-21771H), 01 Dec 1983  
 Lt. Tungnung C (NR-21772L), 30 Nov 1984  
 Lt. Suman Rawat (NR-21773N), 28 May 1985  
 Lt. Sneh Yadav (NR-21774W), 12 Mar 1985  
 Lt. Priyamvada J (NR-21775Y), 16 Aug 1985

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in the Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 24 Mar 2008 (with antedate 24 Mar 2007):-

To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number and Date of Birth

Lt. G Sundari (NS-21720P), 15 Dec 1984  
 Lt. Laishram Ameeta (NS-21721X), 09 Sep 1981  
 Lt. A Grace Gnana Margret (NS-21722A), 23 Jan 1986  
 Lt. Kalpana Pathak (NS-21723H), 06 Feb 1982  
 Lt. Kirti Maan (NS-21724I), 14 Nov 1985  
 Lt. Elizabeth Julie George (NS-21725N), 30 Jul 1978  
 Lt. Neerja Kerketta (NS-21726W), 20 May 1979  
 Lt. Seema Jakhar (NS-21727Y), 20 Nov 1984  
 Lt. Suroj Lata Akham (NS-21728F), 10 Jul 1979  
 Lt. S Sarala (NS-21729K), 26 Jul 1983  
 Lt. Thenmozhi J (NS-21730Y), 09 Jun 1985  
 Lt. Vigneshwari B (NS-21731F), 17 Jun 1984  
 Lt. Lekshmi KS (NS-21732K), 10 May 1985  
 Lt. Rumi Neog Saikia (NS-21733M), 06 Jun 1975  
 Lt. Deep Shikha Khadse (NS-21734P), 29 Sep 1980

Lt. M Muppudathiammal (NS-21735X), 22 Apr 1980  
 Lt. Sudha S (NS-21736A), 15 Mar 1986  
 Lt. Shalu Verma (NS-21737H), 18 Oct 1984  
 Lt. Shreedevi Biradar (NS-21738L), 22 Jul 1984  
 Lt. Sony Jenifer (NS-21739N), 30 Mar 1985  
 Lt. Jayanthi (NS-21740H), 18 Feb 1985  
 Lt. Priya S (NS-21741L), 06 Apr 1983  
 Lt. Leena Dhamgaye (NS-21742N), 03 Apr 1984  
 Lt. Aruna Biradar (NS-21743W), 20 Jul 1984  
 Lt. Vishvabharti (NS-21744Y), 10 Jan 1986

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in the Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 29 Aug 2008.

To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number and Date of Birth

Lt. Viveka Arya (NS-21808Y), 26 Jun 1985  
 Lt. M Anlin Pathorse (NS-21809F), 09 Apr 1986  
 Lt. Mamta Kumari Dwivedi (NS-21810W), 27 Mar 1984  
 Lt. Anisha Kumari (NS-21811Y), 28 Oct 1984  
 Lt. Anita Bachie (NS-21812F), 23 Mar 1985  
 Lt. Himani Singh Choudhary (NS-21813K), 08 Jul 1981  
 Lt. Anuja Ardhye (NS-21814M), 14 Nov 1986  
 Lt. Sutanima Chowdhury (NS-21815P), 05 Aug 1986  
 Lt. Lalsa (NS-21816X), 29 Oct 1986  
 Lt. Rency Joyce J (NS-21817A), 19 Jul 1987  
 Lt. Navdeep Kaur Kamboj (NS-21818H), 30 Dec 1985  
 Lt. Gayathri V (NS-21819L), 25 Jan 1985  
 Lt. Kalpana Kapse (NS-21820A), 10 May 1983  
 Lt. Anandita Das (NS-21821H), 18 Sep 1985  
 Lt. Sukanya (NS-21822L), 01 Mar 1983  
 Lt. Nimmy Francise (NS-21823N), 31 May 1984  
 Lt. Dipti Tiwari (NS-21824W), 14 Nov 1984  
 Lt. Rubini Joy (NS-21825Y), 28 May 1987  
 Lt. Sunakshi Singh (NS-21826F), 11 Nov 1984  
 Lt. Soumya Mohan (NS-21827K), 05 Jul 1985  
 Lt. Preethy Jose (NS-21828M), 03 May 1987  
 Lt. Mousumi Dutta (NS-21829P), 12 May 1985

T PADMINI  
 Maj Gen  
 Addl DGMNS

## MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 440, dated 19th June 2009—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following officer:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Lt. General

IC No., Rank, Name, Arm and Date of subs rank

(IC-27026) Maj Gen Prakash Menon, AVSM, VSM, Guards, 11 Dec 2008 with seniority from 01 Dec 2008 without effect on pay and pension

(IC-25901) Maj Gen KT Parnaik, YSM, Raj Rif, 27 Dec 2008 with seniority from 01 Dec 2008 without effect on pay and pension.

(IC-25833) Maj Gen GM Nair, SM, VSM, 11 GR, 23 Jan 2009

(IC-27203) Maj Gen, SK Singh, AVSM, 8 GR, 01 Feb 2009

(IC-27215) Maj Gen NK Singh, AVSM, VSM, 3 Gr, 16 Feb 2009

(V-00330) Maj Gen JK Srivastava, RVC, 24 Feb 2009

To be Substantive Maj Gen

IC No. Rank, Name, Arm and Date of Subs Rank

(V-00334) Brig MI. Sharma, RVC, 07 Mar 2009

NK PHUKAN  
DirMS(X)

## ARMY BRANCH

No. 441, dated 19th June 2009—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Gp Capt (& equivalent) to be Air Cmde (& equivalent)

V Sarsawat (MR-04370X) (AF-28907), 01 June 2008 with notional seniority without effect on pay and pension from 01 May 2008

BS RATHORE  
Maj Gen  
Addl DGM (HR)

## ARMY BRANCH

No. 442, dated 19 June 2009—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Substantive Col (By Selection)

Pers No. Name, Arm and Subs Date

(IC-45042) RS Johal, EME, 15 Aug 2006

(IC-41435) Manvinder Singh, AAD, 15 Aug 2006

(IC-41517) R Sundharam, Sigs, 15 Aug 2006

(IC-43615) SS Suhag, Engrs, 15 Aug 2006

(IC-45235) YK Singh, Int, 15 Aug 2006

(IC-45239) Anil Ranjan Ray, EME, 15 Aug 2006

(IC-41920) AN Baindur, Engrs, 15 Aug 2006

(IC-42076) DK Haridas, Engrs, 15 Aug 2006

(IC-42098) RS Rathore, Arty, 15 Aug 2006

IC-42151) RK Tyagi, Sigs, 15 Aug 2006

(IC-43996) GS Shanwal, Sigs, 15 Aug 2006

(IC-44022) Rakesh Chopra, Engrs, 15 Aug 2006

(IC-45306) RK Dureha, EME, 15 Aug 2006

(IC-45316) GS Chadha, EME, 15 Aug 2006

(IC-42407) SB Mathur, Sigs, 15 Aug 2006

(IC-42489) VS Yadav, EME, 15 Aug 2006

(IC-42609) SS Ahlawat, ASC, 15 Aug 2006

(IC-42319) Ajay Dixit, Sigs, 15 Aug 2006

(IC-42487) S Savant, AAD, 15 Aug 2006

(IC-45246) IS Sehdeva, Inf, 15 Aug 2006

(IC-45365) Pravesh Puri, AC, 15 Aug 2006

(IC-45366) Sandeep Singh, EME, 15 Aug 2006

(IC-45367) Inderjit Singh, M/Inf, 15 Aug 2006

(IC-45370) GS Mamak, ASC, 15 Aug 2006

(IC-45371) DPS Dadwal, Inf, 15 Aug 2006

(IC-45374) NK Khajuria, ASC, 15 Aug 2006

(IC-45391) Neeraj Sharma, M/Inf, 15 Aug 2006

(IC-45398) R Sampath, AC, 15 Aug 2006

(IC-45416) Dinesh Alagh, ASC, 15 Aug 2006

(IC-45419) VC Chitravanshi, Jag, 15 Aug 2006

(IC-42750) Karanjit Singh, EME, 15 Aug 2006

(IC-42751) SK Nandal, Guards, 15 Aug 2006

(IC-42752) S Yadav, AAD, 15 Aug 2006

(IC-42753) BC Ponnappa, Inf, 15 Aug 2006

(IC-42755) PK Saini, M/Inf, 15 Aug 2006

(IC-42756) V Marwaha, EME, 15 Aug 2006

(IC-42758) MJ Kumar, Engrs, 15 Aug 2006



- (IC-42759) SK Lama, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42761) Keshav Aswal, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-42763) Rajeev Nehra, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-42764) Pankaj Chouhan, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-42765) JJ Mathews, M/Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42769) Ajit Singh Yadav, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-42770) GS Panaich, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-42771) Sanjay Singh, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42773) SK Sharma, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42774) PK Jayswal, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42775) Jairam Kumar, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-42777) RR Patil, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42779) Y Kapoor, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-42780) AK Singh, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42781) UV Talur, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-42782) D Obhrai, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42784) SK Mahapartra, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42785) BP Jacob, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42786) Surinder Yadav, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-42788) JK Gautam, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42790) H Pant, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42792) AK Suri, A/AVN, 15 Aug 2006  
 (IC-42793) Rajiv Bhola, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-42794) MVS Kumar, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42795) J Bhola, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-42796) KC Panchanathan, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-42797) AS Chahil, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42798) Balbir Singh, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-42802) BC Khanduri, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42803) Hafiz Khan, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-42804) NS Rajpurohit, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-42805) Ratan Kumar, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42806) SK Jha, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42807) JS Rajpurohit, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42808) P Bahuguna, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-42809) Kishor Chand S, M/Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42811) BS Shekhawat, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42812) R Sharma, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42813) CV Ajay, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42817) S Paliwal, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42818) H Kohli, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42820) S Koshal, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42821) Sharad Shukla, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-42825) SK Narain, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42828) Jasbir Singh, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-42831) Rupinder Singh, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42832) P Kumar, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42833) Gajinder Singh, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42836) GC Sharma, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-42838) PR Murali, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42841) NS Dahiya, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42842) Sushil Sharma, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42843) R Jhaldiyal, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42844) KS Mahar, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-42845) A Kaura, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42848) Ravi, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42851) PN Mohapatra, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42852) A Jindal, M/Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42853) Gautam Oberoi, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-42855) Deepak Kumar, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-42857) GS Kahlon, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42862) YS Mor, Guards, 15 Aug 2006  
 (IC-42867) D Gupta, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42873) S Thapliyal, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-42877) S Nanda Kumar, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42878) Arvind Mohan, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-42881) Sanjay Rihani, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-42885) S Thakur, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42887) PK Chahal, Int, 15 Aug 2006  
 (IC-42893) NA Seethi, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-42894) Piyush Agarwal, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-42897) HK Pokhariyal, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-42899) S Balachandrudu, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-42904) NS Ghuman, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42905) Vineet Prabhat, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-42906) TS Sandhu, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42914) Ram S Gabri, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-42915) RV Singh, ASC, 15 Aug 2006

- (IC-42919) Manoj Kumar, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42921) R Yadav, Int, 15 Aug 2006  
 (IC-42926) Bhaskar Kalita, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42935) RK Chauhan, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42938) Suril Misra, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-42945) S Sharma, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-42946) MV Shashidhar, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42947) Suresh Singh, AOC, 21 Aug 2006 but seniority wef 15 Aug 2006 without effect on pay and pension.  
 (IC-42954) Pramod Kumar A, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42955) Jarnail Singh, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-42958) HM Iyer, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42959) PJ Ninan, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42965) V Kishore, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42967) D Kassal, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42971) Rajinder Singh, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42972) R Pande, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42976) PS Julka, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-42977) GG Pamidi, M/Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42980) SK Yadav, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-42982) PS Chandok, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-42987) KSR Mohan, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42992) AK Sharma, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-42995) AK Gupta, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-42999) H Tripathi, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-43001) RK Srivastava, Int, 15 Aug 2006  
 (IC-43008) Devendra Singh, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-43010) BK Tyagi, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43011) SK Sharma, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43016) S Sharma, M/Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43018) PK Sharma, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-43021) GS Rawat, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43022) PKS Bhaty, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43028) AK Sinha, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43033) GN Raghu Ram, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43035) Rajiv Verma, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-43037) D Yadav, Int, 15 Aug 2006  
 (IC-43038) P Sharma, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43048) SS Nair, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43051) PP Singh, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-43059) Lobzang Neema, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-43064) N Kumar, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43073) R Rama, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43088) A Bhatnagar, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-43089) H Bhatnagar, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-43093) SK Singh, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-43102) Deepinder Singh, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-43121) P Srnagesh, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-43123) R Bakshi, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43126) Pradeep Sofat, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43127) N Kumar, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-43129) M Bhatnagar, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43136) SS Rathore, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43144) SK Datta, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43149) K Venkatraman, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-43210) Binod Kumar, AEC, 01 Mar 2007 but seniority wef 15 Aug 2006 without effect on pay and pension.  
 (IC-42902) Devinder Singh, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-42875) SK Chhikara, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-44854) MM Nair, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-44856) Vikram Joshi, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44858) Amik Garg, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-44862) OP Yadav, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-44863) V Lalchandani, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-44867) Atul Thapliyal, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-44869) Rajeev Kumar Singh, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-44870) DM Gupta, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44873) Adarsh Bhardwaj, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-44874) MM Majumdar, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44879) RSV Ramana, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-44881) Sunil S, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-44882) SS Kapoor, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44885) Rajesh Jayaswal, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-44889) T Bhattacharya, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44893) MK Singhal, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44899) AK Shivkumar, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44900) Gargopal Singh, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44901) Sanjay Sharma, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44902) Sanjay Sharma, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-44908) MK Sharma, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44912) Ramesh Kumar P, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-44919) AV Ramesh, EME, 15 Aug 2006

- (IC-44921) SI Joshi, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-44942) Dinesh Jain, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44948) Deepak Singh, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44954) SV Chandran, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44963) RK Tharu, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44981) CD Bharucha, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-44859) GP Misra, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-44880) Ajay Gosh PK, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-44915) AK Sinha, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44865) Ravindra Mehta, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-44914) NK Jain, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-44920) HK Rath, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-45843) VS Ralhi, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-45435) R Niwas, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-45437) SS Raghav, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-45438) DS Lohamaror, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-45439) A Bhattacharyya, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-45440) KKJA Khan, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-45444) Kamal Singh, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-45446) JP Tiwari, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-45448) Rajesh Thakur, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-45451) RR Nair, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-45457) RR Nair, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-45459) S Mukherjee, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-45462) VK Pant, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-45468) N Joshi, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-45479) Manmohan Sood, JAG, 15 Aug 2006  
 (IC-45493) Rajeev Kapoor, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-45495) BK Bhardwaj, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-45500) Rajiv Mehrotra, JAG, 15 Aug 2006  
 (IC-45504) J Chakravarty, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-45517) Rakesh, JAG, 15 Aug 2006  
 (IC-43216) BP Singh, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-43217) Mohan Singh, Guards, 15 Jun 2007 but seniority wef 15 Aug 2006 without effect on pay and pension.  
 (IC-43218) PS Minhas, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-43219) Alok Kacker, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43220) SPS Sidhu, M/Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43222) BS Rawat, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-43223) RK Jha, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-43225) GS Shan, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-43226) AK Sharma, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-43228) M Rajendran, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-43230) JK Singh, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-43231) S S Johal, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-43232) Mohit Nautiyal, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-43234) Arney Chitkara, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-43235) MD Chacko, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43236) S Khatri, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43238) Sanjay Rawal, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-43239) Harinder Singh, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43241) RL Hanagi, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43244) MS Jodha, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-43245) NSR Subramani, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43246) SK Kurelay, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-43249) MK Sagoch, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43250) RN Mathur, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43251) S Sharma, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-43252) KH Gawas, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-43254) SS Kahlon, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-43258) SV Bhaskar, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43262) A Arun, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43264) Alok Vats, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43265) Rajiv Minocha, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-43266) RC Khajuria, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43267) VK Menon, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43268) Sanjeev Dalal, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-43269) NS Kahlon, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-43272) RV Sadhotra, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-43273) A Samanta, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43274) S Gopinath, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43275) MS Tomar, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-43278) Arun Saraf, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-43279) S Sumer, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-43280) RI Patro, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43283) J Dahiya, AAD, 15 Aug 2006

- (IC-43284) AK Gupta, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43285) DP Pandey, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43294) AK Pandey, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43295) Ravin Khosia, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43296) VK Misra, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43297) JS Sidana, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-43298) SS Birdie, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-43300) PS Rajpurohit, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43304) R Malhotra, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43307) N Rajkumar, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43311) P Jha, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-43319) Sunil Kotnala, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43320) R Bhatia, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43330) JS Sandhu, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43331) SC Panwar, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43333) K Narayanan, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43337) Karamjit Singh, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43338) KB Jaijraj, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43343) Rajeeva Kumar, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43349) M Nijhawan, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-43350) SK Lenka, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43352) NDGD Joshi, Int, 15 Aug 2006  
 (IC-43354) JS Sandhu, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-43355) Gurdyal Singh, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-43363) VK Pokhriyal, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-43364) SS Khara, Int, 15 Aug 2006  
 (IC-43365) J Hota, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-43370) JP Mathew, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43371) R Nanda, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43376) Sanjiv Dutt, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43385) OP Pandey, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-43388) MK Singh, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43389) PK Singh, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43390) SC Sadangi, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43391) SK Datta, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43393) RA Mandhar, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-43394) Sandeep Misra, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-43395) MK Bindal, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-43397) Anil Pushkarna, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43399) Ajit Singh, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43402) MK Gupta, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-43407) S Pavamani, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43415) DPS Chahal, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-43421) KS Rao, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43423) S Tiwari, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43426) Atesh Chahar, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43428) VS Yadav, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43429) BC Sharma, Sigs, 15 Aug 2006  
 (IC-43431) MS Karkhanis, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43434) SP Singh, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-43436) Kawaljeet Singh, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43437) R Bhargava, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-43440) R Lowe, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43443) SS Sandhu, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43444) PGK Menon, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43445) A Khandpur, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43452) R Kapur, EME, 15 Aug 2006  
 (IC-43454) D Mukerjee, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43460) AS Srivastava, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-43466) Rajiv Pamey, AC, 15 Aug 2006  
 (IC-43471) SS Sidhu, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43472) PC Nair, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43473) Pramod Roy, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43476) NP Singh, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-43479) Vijay Sahgal, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43481) S Grover, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43483) Pardeep Singh, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43513) S Bhargava, ASC, 15 Aug 2006  
 (IC-43516) UC Prasad, Engrs, 15 Aug 2006  
 (IC-43529) P Kaushik, Arty, 15 Aug 2006  
 (IC-43532) Arvinder Singh, AOC, 15 Aug 2006  
 (IC-43547) RK Singh, Inf, 15 Aug 2006  
 (IC-43549) DS Locham, AAD, 15 Aug 2006  
 (IC-43568) NK Rangra, AOC, 15 Aug 2006

- (IC-43570) Pergat Singh, Arty, 15 Aug 2006
- (IC-43582) Ashwin Dev, Sigs, 15 Aug 2006
- (IC-43594) GS Kalkat, AAD, 15 Aug 2006
- (IC-43604) AP Singh, Inf, 15 Aug 2006
- (IC-43620) A Thakur, Inf, 15 Aug 2006
- (IC-43648) JH Samuel, AEC, 30 Jul 2007 but seniority wef 15 Aug 2006 without effect on pay and pension
- (IC-43287) MK Singh, Inf, 15 Aug 2006
- (IC-43306) Jagdeep Singh, Arty, 15 Aug 2006
- (IC-43412) MS Jodha, AC, 15 Aug 2006
- (IC-43563) Sanjay Wahal, Inf, 15 Aug 2006
- (IC-47481) Vijay Jain, Engrs, 15 Aug 2006
- (IC-47482) HS Kahlon, Engrs, 15 Aug 2006
- (IC-47483) JS Isher, Engrs, 15 Aug 2006
- (IC-47487) JS Brar, Engrs, 15 Aug 2006
- (IC-47491) RK Timmapur, Engrs, 15 Aug 2006
- (IC-47496) DB Pany, EME, 15 Aug 2006
- (IC-47503) NSC Govind, Engrs, 15 Aug 2006
- (IC-47510) RK Gaur, Sigs, 15 Aug 2006
- (IC-47514) MK Gupta, Engrs, 15 Aug 2006
- (IC-47520) NK Jha, Engrs, 15 Aug 2006
- (IC-47523) PK Goyal, Engrs, 15 Aug 2006
- (IC-47535) Deepak Sharan, Engrs, 15 Aug 2006
- (IC-47539) Parveen Kumar, EME, 15 Aug 2006
- (IC-47540) AK Binjolkar, EME, 15 Aug 2006
- (IC-47484) Sukhdev Singh, EME, 15 Aug 2006
- (IC-47515) Prabir Deb, Engrs, 15 Aug 2006
- (IC-47533) G Raja Sekhar, EME, 15 Aug 2006
- (IC-47502) Ashwani Kumar, EME, 15 Aug 2006
- (IC-47532) G Kumaraswamy, Engrs, 15 Aug 2006
- ((SL-03107) RM Pradhan, SLQM, 08 Feb 2008 but seniority wef 15 Aug 2006 without effect on pay & pension
- (IC-43203) JK Laxman, MF, 15 Aug 2006
- ((SL-03364) CS Dhillon, SL ER/TEO, 18 Dec 2006 but seniority wef 15 Aug 2006 without effect on pay & pension
- ((SL-03391) Subhash Chander SL Cipher, 15 Aug 2006
- ((SL-03394) CP Singh, SL Cipher, 15 Aug 2006
- (IC-38059) MK Gupta, Arty, 01 May 2007
- (IC-37626) HD Mishra, Arty, 01 May 2007
- (IC-38870) GPS Kaushik, Arty, 01 May 2007
- (IC-39754) Himmat Singh, Mech Inf, 01 May 2007
- (IC-45201) Sunil Dewan, AAD, 01 May 2007
- (IC-42134) RKL Srivastava, Int Corps, 14 Mar 2008 but seniority wef 01 May 2007 without effect on pay and pension
- (IC-45312) JP Srivastav, ASC, 01 May 2007
- (IC-42754) AK Nath, Sigs, 01 May 2007
- (IC-42933) Sanjay Joshi, ASC, 01 May 2007
- (IC-43080) BP Hatwal, AOC, 01 May 2007
- (IC-43157) NP Singh, Inf, 01 May 2007
- (IC-43078) Sanjeev Dubey, ASC, 01 May 2007
- (IC-44861) Jose KP, Engrs, 01 May 2007
- (IC-44886) Rajiv Sharma, Sigs, 01 May 2007
- (IC-44922) R Pallisery, Sigs, 01 May 2007
- (IC-43359) M Purushothaman, Inf, 01 May 2007
- (IC-43368) AT Varghese, ASC, 01 May 2007
- (IC-43410) Deepak DE, Inf, 01 May 2007
- (IC-43528) US Virk, ASC, 01 May 2007
- (IC-43603) AK Jha, ASC, 01 May 2007
- (IC-43450) Inderjeet Singh, Arty, 01 May 2007
- (IC-42632) Yash Bali, Arty, 01 May 2007
- (IC-45477) Mukul Bhalla, EME, 01 May 2007
- (IC-45524) V V Subramaniam, Mech Inf, 01 May 2007
- (IC-45531) BG Jagadeesh, EME, 01 May 2007
- (IC-45535) SPR Bhosle, Inf, 01 May 2007
- (IC-45537) HS Rup, Arty, 01 May 2007
- (IC-45540) Rakesh Thakur, AC, 01 May 2007
- (IC-45541) TPJ Chandran, Inf, 01 May 2007
- (IC-45546) DJS Chahal, AC, 21 Jun 2007 but seniority wef 01 May 2007 without effect on pay and pension.
- (IC-45549) S Sethi, AAD, 01 May 2007
- (IC-45551) MS Kumar, Inf, 01 May 2007
- (IC-45552) Ranjit Singh, Guards, 01 May 2007
- (IC-45555) Monish Datta, Inf, 01 May 2007
- (IC-45562) JJ Varghese, AC, 01 May 2007
- (IC-45564) Dinesh Chadha, Arty, 01 May 2007
- (IC-45567) J Barnana, Arty, 01 May 2007

(IC-45582) KP Singh, Inf, 01 May 2007	(IC-43723) HK Pant, ASC, 01 May 2007
(IC-45583) JN Pandey, Arty, 01 May 2007	(IC-43724) SK Chugh, AAD, 01 May 2007
(IC-45585) Basudev Mitra., Inf, 01 May 2007	(IC-43725) MK Katiyar, Inf, 01 May 2007
(IC-45591) A Mathur, EME, 01 May 2007	(IC-43728) RB Biradar, Engrs, 01 May 2007
(IC-43655) K Vinod Kumar, Sigs, 01 May 2007	(IC-43729) Rajeev Saksena, Inf, 01 May 2007
(IC-43657) PD Naidu, Engrs, 01 May 2007	(IC-43730) Vikrant Nayar, AC, 01 May 2007
(IC-43658) Hari Singh, Engrs, 01 May 2007	(IC-43731) Sandeep Pande, Inf, 01 May 2007
(IC-43659) Sudhir Kumar, EME, 01 May 2007	(IC-43734) Yogesh Sehgal, Engrs, 01 May 2007
(IC-43660) Sanjay Babbar, AC, 01 May 2007	(IC-43735) JC Talukdar, Arty, 01 May 2007
(IC-43661) BR Pillai, FME, 01 May 2007	(IC-43737) Rajeev Thapar, Inf, 01 May 2007
(IC-43664) AK Soni, Engrs, 01 May 2007	(IC-43745) Govind Singh, Inf, 01 May 2007
(IC-43667) KS Brar, AC, 01 May 2007	(IC-43746) Adosh Kumar, Arty, 01 May 2007
(IC-43671) RK Chhikara, Inf, 01 May 2007	(IC-43751) BS Aujla, Inf, 01 May 2007
(IC-43673) Gurjap Singh, Inf, 01 May 2007	(IC-43756) S Langeh, Inf, 01 May 2007
(IC-43674) Tejbir Singh, Mech Inf, 01 May 2007	(IC-43762) N Bharti, Inf, 01 May 2007
(IC-43675) SR Dhaga, Sigs, 01 May 2007	(IC-43766) Ashutosh Kale, Inf, 01 May 2007
(IC-43676) Rajinder Singh, Inf, 01 May 2007	(IC-43767) R Srivastava, AAD, 01 May 2007
(IC-43679) GPS Sisodiya, Inf, 01 May 2007	(IC-43768) Mukesh Rastogi, Inf, 01 May 2007
(IC-43682) AK Samantara, Inf, 01 May 2007	(IC-43770) Shashi Bhushan, Inf, 01 May 2007
(IC-43683) N Kumar, Arty, 01 May 2007	(IC-43771) S Mohan, AAD, 01 May 2007
(IC-43686) Sanjiv Rai, Inf, 01 May 2007	(IC-43774) M Dsouza Mech Inf, 07 Jul 2008 but seniority wef 01 May 2007 without effect on pay and pension
(IC-43687) Vivek Sharma, Inf, 01 May 2007	(IC-43776) AK Rohilla, Inf, 01 May 2007
(IC-43688) Kalyan Singh, Inf, 01 May 2007	(IC-43777) Prashant P Oak, Arty, 01 May 2007
(IC-43689) PS Bajwa, Inf, 01 May 2007	(IC-43779) Alok Jain, Arty, 01 May 2007
(IC-43690) HS Dhodi, AC, 01 May 2007	(IC-43780) Dipak Banerjee, Inf, 01 May 2007
(IC-43693) Ravinder Singh, AC, 01 May 2007	(IC-43782) RP Sharma, Inf, 01 May 2007
(IC-43701) MS Sharma, Arty, 01 May 2007	(IC-43783) KS Sharawat, Inf, 01 May 2007
(IC-43702) P Rahul, AAD, 01 May 2007	(IC-43786) RA Khan, AC, 22 Jun 2007 but seniority wef 01 May 2007 without effect on pay and pension.
(IC-43703) RK Mathur, Arty, 01 May 2007	(IC-43790) Sanjay Singhal, Arty, 01 May 2007
(IC-43704) SQ Ahmed, Arty, 01 May 2007	(IC-43791) MU Reddy, Sigs, 01 May 2007
(IC-43710) TK Arch, Inf, 01 May 2007	(IC-43793) JK Chaurasia, Inf, 01 May 2007
(IC-43711) D Malhotra, Sigs, 01 May 2007	(IC-43796) Samir Gupta, Arty, 01 May 2007
(IC-43712) ABK Sibal, Engrs, 01 May 2007	(IC-43798) BS Maxi, AOC, 01 May 2007
(IC-43717) Mukund Sharma, Engrs, 01 May 2007	(IC-43801) Sanjay Bakshi, EME, 01 May 2007
(IC-43718) DS Yadav, Inf, 01 May 2007	(IC-43803) SS Prabhu, Arty, 01 May 2007
(IC-43720) A Tripathi, AC, 01 May 2007	
(IC-43722) DK Singh, Inf, 01 May 2007	

- (IC-43804) B Sharma, ASC, 01 May 2007  
(IC-43810) Vasudhesh Arya, Arty, 01 May 2007  
(IC-43813) KBS Bhimraj, Inf, 01 May 2007  
(IC-43814) V Subramani, Engrs, 01 May 2007  
(IC-43815) C Sharma, AOC, 01 May 2007  
(IC-43817) NG Railkar, Sigs, 01 May 2007  
(IC-43820) GRS Reddy, Inf, 01 May 2007  
(IC-43822) NR Babu, Inf, 01 May 2007  
(IC-43823) Satinder Singh, Inf, 01 May 2007  
(IC-43831) VN Khadilkar, Sigs, 01 May 2007  
(IC-43835) I Chatterjee, Inf, 01 May 2007  
(IC-43837) Rajinder Kumar, Sigs, 01 May 2007  
(IC-43842) MK Das, Inf, 01 May 2007  
(IC-43843) Adish Yadav, Inf, 01 May 2007  
(IC-43847) P Jadeja, Engrs, 01 May 2007  
(IC-43854) AD Sardana, EME, 01 May 2007  
(IC-43856) M Gnana Sekaran, Arty, 01 May 2007  
(IC-43858) Manjit Kumar, Sigs, 01 May 2007  
(IC-43859) HS Gill, ASC, 01 May 2007  
(IC-43862) Ajay Ahooja, Engrs, 01 May 2007  
(IC-43867) AM Gade, Sigs, 01 May 2007  
(IC-43869) Pradeep Kaul, Arty, 01 May 2007  
(IC-43872) Pradeep Bhatia, Inf, 01 May 2007  
(IC-43875) Vijay Mehta, Inf, 01 May 2007  
(IC-43877) R Dewan, Inf, 01 May 2007  
(IC-43880) S Chaturvedi, ASC, 01 May 2007  
(IC-43883) S Sharma, ASC, 01 May 2007  
(IC-43888) AKG Kamoji, Engrs, 01 May 2007  
(IC-43903) P Mukherjee, Inf, 01 May 2007  
(IC-43904) AP Singh, AOC, 01 May 2007  
(IC-43908) SP Vishwanath, AOC, 01 May 2007  
(IC-43912) Sharad Tandon, ASC, 01 May 2007  
(IC-43913) B Shivprasad, Engrs, 01 May 2007  
(IC-43914) RK Mahna, Inf, 01 May 2007  
(IC-43919) Bhoop Singh, Inf, 01 May 2007  
(IC-43923) Rajiv Kapoor, Inf, 01 May 2007  
(IC-43934) Ajit Kapoor, Arty, 01 May 2007  
(IC-43944) VK Bahree, Army Avn, 01 May 2007  
(IC-43945) Rajiv Chauhan, AOC, 01 May 2007  
(IC-43954) SK Sangwan, Inf, 01 May 2007  
(IC-43960) MV Prabhu, AAD, 01 May 2007  
(IC-43981) Sharad Kapur, Inf, 01 May 2007  
(IC-44014) SV Singh, AEC, 01 May 2007  
(IC-43685) Bhupender Singh, Inf, 01 May 2007  
(IC-43709) BS Sandhu, Engrs, 01 May 2007  
(IC-43740) D Chandola, Sigs, 01 May 2007  
(IC-43794) Sanjay Nand, Inf, 01 May 2007  
(IC-43684) JB Chaudhari, Guards, 01 May 2007  
(IC-43866) RK Kaushal, Arty, 01 May 2007  
(IC-47938) RK Sharma, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47939) S Gangwar, EME, 01 May 2007  
(IC-47941) RK Jindal, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47942) NGK Prasad, EME, 01 May 2007  
(IC-47972) Sunil Kumar, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47973) CM Dua, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47979) PS Rana, EME, 01 May 2007  
(IC-47984) SK Kataria, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47987) SK Tomer, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47994) JK Rao, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47999) Sandeep Bhalla, EME, 01 May 2007  
(IC-48009) Giridhar, Engrs, 01 May 2007  
(IC-48021) B Patil, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47943) SV Bajpai, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47945) SP Singh, EME, 01 May 2007  
(IC-47946) AK Chaubey, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47949) VSK Reddy, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47952) Piyush Krishna, Sigs, 01 May 2007  
(IC-47953) SS Kumar, Engrs, 01 May 2007  
(IC-48004) R Jaya Prasad, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47954) Amrit Lal, Sigs, 01 May 2007  
(IC-47957) MK Prasad, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47959) BS Chauhan, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47960) Dhiraj Mohan, Engrs, 01 May 2007  
(IC-47961) SK Deo, Engrs, 01 May 2007

(IC-47962) PKG Mishra, Engrs, 01 May 2007	(IC-44072) K Bhardwaj, Arty, 01 May 2007
(IC-47971) RG Sonopant, EME, 01 May 2007	(IC-44073) R Parkash, EME, 01 May 2007
(IC-48002) Ajay Pathak, EME, 01 May 2007	(IC-44074) SS Bakshi, Arty, 01 May 2007
(IC-47995) PK Shrivastava, EME, 01 May 2007	(IC-44076) Anil B Sindgi, Inf, 01 May 2007
(IC-45610) P Sathayanath, EME, 01 May 2007	(IC-44077) PS Sandhu, Inf, 01 May 2007
(IC-45614) S Narasimhan, AC, 01 May 2007	(IC-44080) RK Singh, Inf, 01 May 2007
(IC-45619) SS Katariya, EME, 01 May 2007	(IC-44081) Pramod Rawat, EME, 01 May 2007
(IC-45621) Charan Bir Singh, Mech Inf, 01 May 2007	(IC-44082) ARS Kahlon, AC, 01 May 2007
(IC-45622) Vinay Bahl, Inf, 01 May 2007	(IC-44083) Sanjay Puri, Inf, 01 May 2007
(IC-45623) S Nagpal, EME, 01 May 2007	(IC-44086) Rohit Mehrotra, Sigs, 01 May 2007
(IC-45629) B Kesar, Mech Inf, 01 May 2007	(IC-44087) S Bhattacharjee, Arty, 01 May 2007
(IC-45630) KC Saklani, Inf, 01 May 2007	(IC-44088) Rajwant Singh, Inf, 01 May 2007
(IC-45641) R Sachdev, Inf, 01 May 2007	(IC-44090) V Dhiman, Arty, 01 May 2007
(IC-45642) VG Reddy, Inf, 01 May 2007	(IC-44092) Goutam Dey, Arty, 01 May 2007
(IC-45672) Tarun Madan, EME, 01 May 2007	(IC-44093) GS Sidhu, Inf, 01 May 2007
(IC-44036) Atul Rawat, Mech Inf, 01 May 2007	(IC-44095) AK Kashid, Arty, 01 May 2007
(IC-44038) H Dharmarajan, Engrs, 01 May 2007	(IC-44096) Akash Popli, EME, 01 May 2007
(IC-44039) S Jose, AAD, 01 May 2007	(IC-44098) S Mahajan, ASC, 01 May 2007
(IC-44040) RS Rawat, AOC, 01 May 2007	(IC-44099) N Varshney, EME, 01 May 2007
(IC-44041) M Indrabalan, Engrs, 01 May 2007	(IC-44101) NK Keshab, EME, 01 May 2007
(IC-44042) AR Bajpai, Mech Inf, 01 May 2007	(IC-44105) Pankaj Dikshit, Sigs, 01 May 2007
(IC-44044) Dhiraj Seth, AC, 01 May 2007	(IC-44106) NR Indurkar, Inf, 01 May 2007
(IC-44046) JS Nanda, Inf, 01 May 2007	(IC-44107) Pardeep Kumar, Inf, 01 May 2007
(IC-44048) PS Jaiswal, Engrs, 01 May 2007	(IC-44110) PK Choudhary, Sigs, 01 May 2007
(IC-44051) DV Singh, Guards, 01 May 2007	(IC-44111) Kirpal Singh, Arty, 01 May 2007
(IC-44053) P Mohandasan, AAD, 01 May 2007	(IC-44113) Kabir, Inf, 01 May 2007
(IC-44054) V Choudhary, Engrs, 01 May 2007	(IC-44116) KL Khajuria, AOC, 01 May 2007
(IC-44055) VM Chandran, AC, 01 May 2007	(IC-44117) HS Jamwal, ASC, 01 May 2007
(IC-44056) RS Yadav, EME, 01 May 2007	(IC-44118) Manjit Singh, Inf, 01 May 2007
(IC-44057) Rajiv Mankotia, Inf, 01 May 2007	(IC-44120) SS Dahiya, Inf, 01 May 2007
(IC-44059) NB Paradkar, Inf, 01 May 2007	(IC-44121) VN Sawant, Inf, 01 May 2007
(IC-44060) Anil Gautam, AAD, 01 May 2007	(IC-44123) Laxman Singh, Inf, 01 May 2007
(IC-44062) Ajai Verma, Inf, 01 May 2007	(IC-44124) Brijender Singh, Inf, 01 May 2007
(IC-44063) A Arora, Inf, 01 May 2007	(IC-44126) RS Bhattu, Mech Inf, 01 May 2007
(IC-44065) Manjinder Singh, Inf, 01 May 2007	(IC-44128) Arun Nair, Inf, 01 May 2007
(IC-44067) AN Jha, Inf, 01 May 2007	(IC-44129) S Randev, ASC, 01 May 2007
(IC-44070) SP Malik, AOC, 01 May 2007	(IC-44132) Suresh Chandra, AOC, 01 May 2007



- (IC-44133) Sanjeev Relia, Sigs, 01 May 2007  
 (IC-44134) NA Pradeep, Arty, 01 May 2007  
 (IC-44136) Ravi Dimri, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44142) SD Mehta, Arty, 01 May 2007  
 (IC-44143) Pawan Bajaj, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44145) Chand Saroha, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44149) RK Singh, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44153) AM Madan, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44158) AR Khadar, Arty, 01 May 2007  
 (IC-44160) Vivek Matta, AOC, 01 May 2007  
 (IC-44161) J Bhardwaj, Engrs, 01 May 2007  
 (IC-44167) NP Singh, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44171) A Malhotra, ASC, 01 May 2007  
 (IC-44173) A Tripathi, ASC, 01 May 2007  
 (IC-44175) Limaye SM, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44180) S Tyagi, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44191) SS Dhadwal, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44193) Ranbir Singh, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44200) Deepak Saini, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44201) IP Singh, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44202) Arvind Kapoor, AC, 01 May 2007  
 (IC-44206) VV Rao, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44212) PK Verma, Sigs, 01 May 2007  
 (IC-44214) Manjeet Singh, AOC, 01 May 2007  
 (IC-44218) Ajay Malik, EME, 01 May 2007  
 (IC-44224) R Butalia, Arty, 01 May 2007  
 (IC-44227) MRMV Jogarao, Sigs, 01 May 2007  
 (IC-44228) Vikram Singh, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44229) Amit Sinha, Guards, 01 May 2007  
 (IC-44230) N Jethwani, Int Corps, 01 May 2007  
 (IC-44239) PM Singh, ASC, 01 May 2007  
 (IC-44244) Sunil Wason, EME, 01 May 2007  
 (IC-44247) Sanjay Kapoor, Engrs, 01 May 2007  
 (IC-44250) Rajnish Sinha, AC, 01 May 2007  
 (IC-44254) Naginder Singh, Engrs, 01 May 2007  
 (IC-44256) KB Yadava, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44257) AK Tripathi, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44258) Girish Suri, Sigs, 01 May 2007  
 (IC-44263) Deepak Tyagi, Sigs, 01 May 2007  
 (IC-44266) A Ganguly, Arty, 01 May 2007  
 (IC-44270) P S Nikam, Inf, 04 Feb 2008 but seniority wef 01 May 2007) without effect on pay and pension  
 (IC-44273) S K Satpathy, Inf, 01 May 2007  
 (IC-44277) M S Shergill, AOC, 01 May 2007  
 (IC-44280) J S Samyal, AC, 01 May 2007  
 (IC-44293) K S Dalal, Sigs, 01 May 2007  
 (IC-44297) Sandeep Dhingra, Sigs, 01 May 2007  
 (IC-44301) Harjinder Singh, EME, 01 May 2007  
 (IC-44312) Sameer Jain, Engrs, 01 May 2007  
 (IC-44323) V V Khanolkar, EME, 01 May 2007  
 (IC-44325) R K Sharma, Sigs, 01 May 2007  
 (IC-44327) S I Khan, AAD, 01 May 2007  
 (IC-44330) M M Ramchandra, INF, 01 May 2007  
 (IC-44340) Ravind Bali, EME, 01 May 2007  
 (IC-44346) T Jaggi, EME, 01 May 2007  
 (IC-44348) Amit Jha, Mech Inf, 01 May 2007  
 (IC-44403) S Khanna, ASC, 01 May 2007  
 (IC-44409) Venu Gopal, AOC, 01 May 2007  
 (IC-44414) A Bhushan, INF, 01 May 2007  
 (IC-44261) Brij Gopal, INF, 01 May 2007  
 (IC-44311) Sunil Kutty, EME, 01 May 2007  
 (IC-44139) Ajay Sood, ASC, 01 May 2007  
 (IC-44176) V G Pande, Guards, 01 May 2007  
 (IC-44211) I M Lamba, Arty, 01 May 2007  
 (IC-44272) G P S Virk, Arty, 01 May 2007  
 (IC-44275) P Ramesh, Arty, 01 May 2007  
 (IC-48430) R Kheterpal, Engrs, 01 May 2007  
 (IC-48435) Mukesh Kumar, Engrs, 01 May 2007  
 (IC-48439) B Mukherjee, Sigs, 01 May 2007  
 (IC-48443) V K Agarwal, Engrs, 01 May 2007  
 (IC-48449) M Bhatnfr, Engrs, 01 May 2007  
 (IC-48476) K K Nayak, Sigs, 01 May 2007  
 (IC-48477) K B Marwaha, EME, 01 May 2007  
 (IC-48480) M B Shashidhar, Engrs, 01 May 2007

(IC-48484) Shahid Shabbar, EME, 01 May 2007	V D Venkatachalam (MR-06113Y)	— 25 Jul 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Jan 2008
(IC-48427) Arivind Walia, Engrs, 01 May 2007		
(IC-48429) G P Singh, EME, 01 May 2007		
(IC-48442) Joy K, Engrs, 01 May 2007	D Ojha (MR-05975L)	— 16 Feb 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 09 Jun 2008
(IC-48478) M C Bhardwaj, EME, 01 May 2007		
(IC-48437) G C Samanta, EME, 01 May 2007		
(IC-48444) K V Anand Kumar, EME, 01 May 2007	P Puri (MR-05884F)	— 23 Jan 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Dec 2008
(IC-48473) K K Kapoor, EME, 01 May 2007		
(IC-48502) Anil Singh, Engrs, 01 May 2007		
(IC-48446) S B Moharil, Engrs, 01 May 2007	K K Garg (MR-06197X)	— 08 Feb 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2009
(SL-03494) V K Dharmarajan, SL TOT, 06 Oct 2008 but seniority wef 01 May 2007 without effect on pay and pension		
(SL-03564) Kashmir Chand, SL AE, 01 May 2007	K Srikar (MR-05400W)	— 12 Mar 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Feb 2009
(SL-03570) Ashok Bedkar, SL ER/TEO, 07 Apr 2008 but seniority wef 01 May 2007 without effect on pay and pension		
(SL-03579) Ranvir Singh, SL QM, 16 Jun 2008 but seniority wef 01 May 2007 without effect on pay and pension	S Kaushal (MR-05395W)	— 03 Feb 2009
(SL-02934) S P Singh, SL TEO, 30 May 2006 but seniority wef 15 Mar 2006 without effect on pay and pension	R K Gupta (MR-05398K)	— 03 Feb 2009
	R C Sahu (MR-06204H)	— 03 Feb 2009

AJAYGOEL  
Dy. Director  
MS-8A

YASH PANDE  
Brigadier  
Dy. DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 443, dated 19th June 2009—The president is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Lt Col/Col (TS) to be Col (Selection & equivalent)

D Vadehra (MR-05777A)	— 09 Jan 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2007
I V S Gahlot (MR-05873P)	— 30 Jan 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2007
R Bakshi (MR-05019H)	— 22 Jan 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 19 Dec 2007

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

No. 444, dated 22 June 2009—The president is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name:—

Lt Col (Select) to Col

Rank & Name, Pers Number, Date of promotion

Col B B Ahluwalia (NR-16015M), 12 Oct 2007

Col K Sarojini (NR-15570N), 16 Nov 2004

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

Rank & Name, Pers Number, Date of promotion

Lt Col R Leena Kumary (NR-17235H), 17 Sep 2007

T Padmini  
Maj Gen  
Addl DGMNS

## ARMY BRANCH

No. 445, the 22nd June 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

## Capt to be Major

SS No.	Name	Arm	Dos	Course	Revised Date of Seniority for Promotion	Major wef
SS-41156	Munish Thakur	Engrs	19 Mar 2003	SSC-22(T)	19 Apr 2003	19 Apr 2009
SS-41162	Akash Kapoor	Sigs	19 Mar 2003	SSC-22(T)	19 Apr 2003	19 Apr 2009
SS-41165	Waghchaure Kaustubh Ramesh	Engrs	19 Mar 2003	SSC-22(T)	19 Apr 2003	19 Apr 2009
SS-41167	Amit Sirohi	Engrs	19 Mar 2003	SSC-22(T)	19 Apr 2003	19 Apr 2009
SS-41171	Sachin Phogat	Sigs	19 Mar 2003	SSC-22(T)	19 Apr 2003	19 Apr 2009
SS-41173	Masram Nagendrasingh Shyamrao	Sigs	19 Mar 2003	SSC-22(T)	19 Apr 2003	19 Apr 2009
SS-41180	Pathak Anil Vasantrao	EME	19 Mar 2003	SSC-22(T)	19 Apr 2003	19 Apr 2009
SS-41181	Katwale Arikshit Charudatta	Engrs	19 Mar 2003	SSC-22(T)	19 Apr 2003	19 Apr 2009
SS-41185	Udayaditya Mukherjee	EME	19 Mar 2003	SSC-22(T)	19 Apr 2003	19 Apr 2009
SS-41187	Rajdeep Bhattacharjee	Engrs	19 Mar 2003	SSC-22(T)	19 Apr 2003	19 Apr 2009
SS-41191	Kumar Aditya	Sigs	19 Mar 2003	SSC-22(T)	19 Apr 2003	19 Apr 2009
SS-41194	Ashish Rao	Engrs	19 Mar 2003	SSC-22(T)	19 Apr 2003	19 Apr 2009
SS-41197	Parshant Gaur	Sigs	19 Mar 2003	SSC-22(T)	19 Apr 2003	19 Apr 2009

SS No.	Name	Arm	Subs Maj wef	Revised date of Seniority for Promotion
SS-39793	P Johnson Jebaraj	Arty	07 May 2009	07 May 2003
SS-39797	Gaurav Seth	Inf	07 May 2009	07 May 2003
SS-39815	Sachin Balyan	Arty	07 May 2009	07 May 2003
SS-39828	K Shyama Sagar Panigrahy	Arty	07 May 2009	07 May 2003
SS-39881	Johnshon Chacko Verghese	Engrs	07 May 2009	07 May 2003
SS-39889	Vijay Prakash Sharma	Arty	07 May 2009	07 May 2003
SS-39900	Mandeep Singh	EME	07 May 2009	07 May 2003
SS-39907	Kush Shandil	Inf	07 May 2009	07 May 2003
SS-39908	Rohit Chaturvedi	AAD	07 May 2009	07 May 2003
SS-39919	Thimajah MC	Inf	07 May 2009	07 May 2003
SS-39925	Mehreesh Kataria	Inf	07 May 2009	07 May 2003
SS-39930	Nitin Kaura	AC	07 May 2009	07 May 2003
SS-39941	Manu Awasthi	AOC	07 May 2009	07 May 2003

JASWANT SINGH  
Jt Dir  
MS-8C

## AIR BRANCH

No. 446, the 22nd Jun 2009.— The President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

## INDIAN AIR FORCE

## AE BRANCH

To be Substantive Air Marshal  
J Neri (13711), AE(L), 29 Apr 2009

## FLYING BRANCH

To be Substantive Air Marshal  
DC Kumaria (13366), F(P), 12 Mar 2009

## LGS BRANCH

To be Substantive Air Marshal  
S Sriram (13408), LGS, 01 Apr 2009

## EDN BRANCH

To be Substantive Air Vice Marshal  
Satyendra Kumar (16283), EDN, 30 Jan 2009

AK SINGH

Dy Dir

Personnel Officers-PO.2(B)

## AIR BRANCH

No. 447, dated 22nd June 2009—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

## INDIAN AIR FORCE

## FLYING BRANCH

To be Substantive Air Vice Marshal

J Chauhan (14079), F(P) 21 Apr 2008, 01 Apr 2008 (For Seniority Purpose only)

RK Jolly (14083), F(P) 20 Jun 2008, 01 Apr 2008 (For Seniority Purpose only)

P Singh (14086), F(P) 01 Apr 2008

RK Sharma (14088), F(P) 01 Apr 2008

P Kumar (14093), F(P) 01 May 2008

PS Gill (14097), F(P) 01 May 2008

KV SHANKAR

Jt Dir Per (Officer)-PO.2(B)

## AIR BRANCH

No. 448, Dated 23rd June 2009—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

## INDIA AIR FORCE

## AE BRANCH

To be Substantive GP Capt (AE Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date

GP Capt (Actg) Y Handa (17821) AE(L), 01 Jan 2009

(His name will appear below GP Capt NR Chitrus (17826), AE(M) in the Combined Gradation List)

GP Capt (Actg) UP Singh (17829), AE(L), 19 Jan 2009

GP Capt (Actg) K Jha (16169) AE(M), 01 Jan 2006

(His name will appear above GP Capt DN Tripathi (15958)), AE(L) in the Combined Gradation List)

AK SINGH

Dy Dir Per (Officers)-2(B)

## AIR BRANCH

No. 449, Dated 23rd June 2009—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

## INDIA AIR FORCE

## FLYING BRANCH

To be Substantive GP Capt (Flying Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date

GP Capt AK Dwivedi (16979), F(P), 01 Sep 2006

(His name will appear between GP Capt J Singh (16969), F(P) and GP Capt A Golani (16986), F(P) in the Combined Gradation List)

## ADM BRANCH

To be Substantive GP Capt (ADM Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date

GP Capt (ACTG) NK Sharma (17038), ADM, 14 Jan 2008

(His name will appear below GP Capt MSG Menon (17035), ADM in the Combined Gradation List)

ASHOK CHAKRAPANI

Dy Dir Per (Officers)-2(D)

## AIR FORCE

No. 450, dated 23rd June 2009—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

## INDIAN AIR FORCE

SQN LDR to be Substantive WG CDR

AE (L) Branch

BK Pandey (23892), w.e.f. 26 May 2008

P Goel (23887), N Ekmardikar (23901)—w.e.f. 26 Nov 2007

AE(M) Branch

Balasubramaniam V (24375), Rajib Chakraborty (24378), Arora V (24368), GL Nagendra (24372), Vikram Patel (24440), V Singh (24380), Gudibanda AK (24382), RK Sinha (24369), Vinay Govindarao Nadkarni (24367), Joginder Kumar (24362), V Sivasubramanian (24730), Ahmad Fareed (24364), V Srivatsan (24381), AK Malik (24356), Ganesh BT (24374), A Arunachal Eswaran (24376), P Kumar (24360), PK Narendra (24366), V Kiran Kumar (24373), KA Rao (24355), Ramesh Kumar (24729), KK Garg (24358)—22 Nov 2008

## AE (L) BRANCH

Abhay Singh Narainia (24395), JKP Mottil (24396), RN Deepak (24384), Samrat Banerjee (24417), GK Nair (24409), S Rawat (24407), D Kumar (24434), Gupta Anuj (24403), HS Sangar (24397), A Perwaiz (24390), Hitender Vats (24385), MP Sharma (24401), NK Suryadevara (24423), Dheeraj Raj Ghai (24425), Rajesh KDA (24412), U Sharma (24405), S Patra (24418), SC Nathan (24419), Durga Prasada Mishra (24733), Vashishtha (24424), Prasanna HN (24388), Asuti M (24400), KM Khan (24402), Rajesh N Nair (24410), R Kotamraju (24420), RS Hari Kumar (24422), Animesh Kumar Agrawal (24387), Vinay Bhardwaj (24392), Bhatia RK (24394), A Raina (24399), PS Sreenivasan (24404), N Mohan Thapliyal (24411), V Anand (24415), Ramani D (24435), Arvind Nagar (24389), Harish Nath Tiwari (24732), Ram Mehar Singh (24736), Satya Prakash Rathore (24734), Rawat RS (24406)—22 Nov 2008

Flt Lt to be Substantive SQN LDR

## SHORT SERVICE COMMISSION

## ADM BRANCH

(Ms) Pooja Thakur (26611), (Ms) Navrattan Kaur (26612), (Ms) Shalini Chaudhary (26617), (Ms) Parul Mishra (26614), (Ms) S Maithani (26618), (Ms) Pratibha Sharma (26613)—16 Jun 2007

## ACCTS BRANCH

(Mrs) Daizy Mehta (26619), (Mrs) Preeti Bahuguna (26624), (Mrs) Namita Anand Sharma (26621)—16 Jun 2007.

## EDN BRANCH

(Ms) Negi Poonam (26626)—16 Jun 2007

## MET BRANCH

(Mrs) Vinila Verma (26212)—16 Jun 2007

## F(P) BRANCH

(Ms) T Uppal (27278)—21 Dec 2008

## ADM BRANCH

(Mrs) Gurpreet Atwal (27058), (Ms) Anupama Singh (27054), (Ms) Hemalata Iyer, (27062), (Ms) L Abirami (27060), (Mrs) Bharati Dimri (27055), (Ms) Geeta Mr Manhas (27057), (Ms) P Sajini (27059)—w.e.f. 22 Jun 2008.

## ACCTS BRANCH

(Ms) Ashu Masdan (27065), (Ms) Tanushree Pant (27064)—w.e.f. 22 Jun 2008.

## EDN BRANCH

(Ms) Pushpa Thakur (27066), w.e.f. 22 Jun 2008.

## MET BRANCH

(Ms) Sapna Devi (26639), w.e.f. 22 Jun 2008.

## ADM BRANCH

(Ms) Nehra D (27284), (Ms) Kalra N (27286), (Ms) RP Pillai (27282), (Ms) DB Dhasmana (27281), (Mrs) Asmita Dhawade (27287), (Mrs) PK Ghuman (27283), (Ms) Thakur N (27285)—w.e.f. 21 Dec 2008.

## LGS BRANCH

(Ms) Thakur M (27291), (Ms) Saxena V (27290), (Ms) Bhaduarua A (27293), (Ms) Thakur A (27289)—w.e.f. 21 Dec 2008.

## AE(L) BRANCH

J A A Ali (27417), w.e.f. 09 Jan 2009.

DV Nair (27422), w.e.f. 16 Jan 2009.

Gurupreet Singh (27427), w.e.f. 17 Jan 2009.

R Ramana Sundaram (27433), w.e.f. 20 Jan 2009.

## ADM BRANCH

Ravi Jain (27085), Sanjeev Singh (27082), Shivraj Singh (27080), AK Priyadarshi (27074), Sanjeev Wazir (27075), Vikas (27077), Bijender Singh (27071), Subhash Chander (27073), Narender P Uniyai (27100), TV Gopala Krishna (27099), Chetan Kumar Jain (27107), S H Karmarkar (27093), D K Singh (27083)—w.e.f. 28 Jun 2008.

N VIJAY KUMAR

Wing Commander

Jt. Dir.

Personnel Offrs-3(D)

## ARMY BRANCH

No. 451, dated 23rd June 2009.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service w.e.f. dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

IC No., Rank, Name, Arm/Service and EDR Date

(IC-43452) Col Rajnish Kapur, EME, 05 Oct 2008(AN)

(IC-39657) Col (TS) Sunil Kumar Pandey, EME, 07 Mar 2009(AN)

(IC-39527) Col (TS) Vivek Chaudhry, SM, Arty, 27 Oct 2008(AN)

(IC-38724) Col (TS) Atul Handa, Arty, 10 Jan 2009(AN)

(IC-44184) Lt Col H Shankar, EME, 18 Sep 2007(AN)

(IC-42763) Col Rajeev Nehra, ASC, 03 Feb 2009(AN)

(IC-38986) Col Kishore Chandra Padhy, Arty, 16 Mar 2008(AN)

(IC-45197) Lt Col (TS) Gurminder Singh, Arty, 07 Jun 2008(AN)

(IC-35396) Col Subir Mukherji, EME, 07 Mar 2009(AN)

(IC-38893) Col Shamsheer Singh, Mech Inf, 17 Aug 2008(AN)

(IC-39068) Col Kiranjit Singh, AC, 03 Sep 2008(FN)

(IC-38492) Col (TS) SK Mahapatra, Mech Inf, 21 May 2008(AN)

(IC-37538) Col (TS) Bhagwat Dayal, EME, 31 Jul 2008 (AN)

(IC-30467) Col (TS) JS Randhawa, AC, 31 May 2006(AN)  
 (IC-39154) Col Sujit Dutta, Mech Inf, 01 Apr 2008(AN)  
 (IC-38737) Col (TS) AS Virk, AC, 31 Aug 2008  
 (IC-37796) Col RK Mohanty, EME, 10 Dec 2008(FN)  
 (IC-34907) Col Jacob Mathew, EME, 29 Jul 2008(AN)  
 (IC-38595) Col Bharat Jhingon, EME, 20 Dec 2008(AN)  
 (IC-38332) Col (TS) TS Virdi, AAD, 03 Mar 2009(AN)  
 (IC-41827) Col Raju Peter, AEC, 28 Feb 2009(AN)  
 (IC-36944) Col AK Sharma, Arty, 30 Nov 2008(AN)  
 (IC-34115) Col (TS) P Aggarwal, Inf, 18 Aug 2008(AN)  
 (IC-38700) Col Benz K Jacob, Inf, 30 Nov 2008(AN)  
 (IC-37712) Lt Col Peethambaran C. Inf, 11 Oct 2008(AN)  
 (IC-41878) Col JPR Ismail, Inf, 20 Oct 2008(AN)  
 (IC-41978) Col JP Potlia, Inf, 22 Dec 2008(AN)  
 (IC-37717) Col US Rathore, Inf, 10 Jan 2009(AN)  
 (IC-35502) Col HS Pathania, SM, Inf, 03 Feb 2009(AN)  
 (IC-35781) Col Anand Basera, Inf, 31 Dec 2008(AN)  
 (IC-40963) Col Amitabh Amit, Inf, 03 Oct 2008(AN)

The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service w.e.f. dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class X), under SAI 10/S/63 as amended :—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

IC No., Rank, Name, Arm/Service and Date of Premature Retirement

(IC-45822) Lt Col Bhupinder Jit Singh Ghajaura, Engrs, 12 Oct 2008(AN)  
 (IC-44636) Lt Col Rohit Kapila, AOC, 31 Aug 2007(AN)  
 (IC-42880) Lt Col Anil Verma, Int, 09 Jul 2007(AN)  
 (IC-42474) Lt Col Anil Kumar Sethi, Sigs, 26 Jul 2006(AN)  
 (IC-44795) Lt Col Arun Chopra, AOC, 26 Dec 2007(AN)  
 (IC-47309) Lt Col Jagdish Singh, AOC, 01 Jul 2007(AN)  
 (IC-39711) Col (TS) Murli Nair, AOC, 01 Jul 2007(AN)  
 (IC-40231) Lt Col Ajay Sahai, AOC, 16 Oct 2007(AN)

(IC-45503) Lt Col Sunil Sharma, AOC, 03 Mar 2007(AN)  
 (IC-47852) Lt Col Ratan Shrivastava, AOC, 23 Dec 2007(AN)  
 (IC-43041) Lt Col Inderbir Singh Mangat, AOC, 19 Oct 2007(AN)  
 (IC-43112) Lt Col Arun Kumar Singh, Sigs, 09 Mar 2007(AN)  
 (IC-45310) Lt Col VK Rathore, SM, VSM, Int, 31 Jul 2007(AN)  
 (IC-49557) Lt Col CS Thiagaraj, Int, 14 Apr 2007(AN)  
 (IC-0404) Lt Col Vivek Chauhan, RVC, 10 Oct 2007(AN)  
 (IC-43623) Lt Col Deepak Chaudhary, Sigs, 16 Jan 2008(AN)  
 (IC-42721) Lt Col RV Devbhankar, Sigs, 09 Feb 2008(AN)  
 (IC-47501) Lt Col Ashok Dighe, Sigs, 12 Mar 2008(AN)  
 (IC-44157) Lt Col Vivek Bhatt, Sigs, 30 Sep 2007(AN)  
 (IC-43825) Lt Col SK M Sreedharan, Engrs, 24 Aug 2007(AN)

S K CHAKRABORTY  
 Jt Dir/MS PR

#### ARMY BRANCH

No. 452, dated 24th June 2009.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

Maj to be Substantive Lt Col (By Selection)

##### CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Min of Defence notification dated 12 May 2001 (Part I Section 4) (Ser No 270) under the heading Regular Army Permanent Commission and sub-heading 'Maj to be Substantive Lt Col by selection', the following amendment is made :—

For : IC-37139 TD Joseph, Armed Corps, 01 Jun 1998  
 Read : IC-37139 IJ Davies, Armed Corps, 01 Jun 1998

AJAY GOEL  
 Dy Dir  
 MS-8A